



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1]  
No. 1]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 1971 (पौष 12, 1892)  
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 1971 (PAUSA 12, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह घलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग I—खण्ड 4 (PART I—SECTION 4)

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रकटनों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं  
(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the  
Ministry of Defence)

#### रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1971

सं० 1, दिनांक 9 दिसम्बर 1970—थल सेना मुख्यालय से स्थानान्तरित होने पर ले० कर्नल ए० एस० बाबा (आई० सी० 9684, को राष्ट्रपति दिनांक 6 अक्टूबर 1970 से रक्षा मंत्रालय के रक्षा पूर्ति विभाग में सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सी० एल० ढीगरा, अवर सचिव

#### (सेना विभाग)

सं० 2, दिनांक 11 दिसम्बर 1970— राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

#### मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

श्री ई० ए० लोबो स्थाई सीबिलियन स्टाफ अफसर को सीनियर सीबिलियन स्टाफ अफसर के पद पर स्थानापन्न रूप से 12 अक्टूबर 1970 से 21 नवम्बर 1970 (अपराह्न तक श्री डी० जे० बराट के स्थान पर जो अवकाश पर थे।

डी० जे० बराट, सहायक  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

#### मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं० 3, दिनांक 7 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति, श्री मित्र सेन जैन, स्थायी सहायक/स्थानापन्न अधीक्षक, वायु सेना मुख्यालय को,  
394GI/70

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में, उसके आरम्भिक गठन के समय, आगामी आदेश पर्यन्त, अधीक्षक (श्रेणी II -राज-पक्षित) के ग्रेड में, स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० डी० जैन, सहायक  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

#### (रक्षा उत्पादन विभाग)

सं० 4, दिनांक 5 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति स्थायी उप-योजना अधिकारी (संविधा) श्री एम० पी० जैन, को दिनांक 25 नवम्बर 1970 से रक्षा उत्पादन विभाग में विधि सलाहकार के रूप में तदर्थ आधार पर एक वर्ष के लिए अथवा तब तक के लिए जब तक यह पद भर्ती नियमानुसार नहीं भरा जाता, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एन० वी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

#### रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 5, दिनांक 7 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

#### रक्षा विज्ञान सेवा

श्री टी० एस० कृष्णन, स्थायी बरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, रक्षा इलेक्ट्रोनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद को इसी संस्थापन में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, दिनांक 1 सितम्बर 1970 (पूर्वाह्न) से।

श्री के० नागाराजन, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मानकीकरण सेल, कानपुर को वस्त्र एवं भण्डार अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, कानपुर में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दिनांक 12 सितम्बर 1970 (पूर्वाह्न) से।

#### रक्षा विज्ञान सेवा

सं० 6, दिनांक 7 दिसम्बर 1970—स्यागपत्र स्वीकृत होने के फलस्वरूप, श्री विरेन्द्र लब्धु, रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली ने दिनांक 2 जनवरी 1970 (अपराह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

बी० एस० कपूर, उप-निदेशक

#### रक्षा उत्पादन विभाग

सं० 7, दिनांक 16 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं—

#### रक्षा विज्ञान सेवा

श्री अय्यास्वामी अय्यर रामामूर्ती, स्थानापन्न फोरमैन (स्थायी सहायक फोरमैन), मुख्य निरीक्षणालय इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलौर को इसी संस्थापन में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, 17 मई 1969 (पूर्वाह्न)।

एस० एस० गुप्ता, उप-निदेशक

#### (राष्ट्रीय कैंडेट कोर का महानिदेशालय)

सं० 8, दिनांक 11 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति जी को प्रसन्नता होती है कि वे कुमारी एस० जे० दास गुप्ता, स्थाई महिला अमला अधिकारी ग्रेड-II/स्थानापन्न महिला अमला अधिकारी ग्रेड-I को राष्ट्रीय कैंडेट कोर के महानिदेशालय में महिला अमला अधिकारी ग्रेड-I को स्थाई रूप में 1-4-1969 से नियुक्त करते हैं।

डी० जे० बराट, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

#### राष्ट्रीय कैंडेट कोर

सं० 9, दिनांक 15 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित को कमीशन प्रदान करते हैं।

#### बालिका डिबीजन (सीनियर स्कंध)

#### 2/लेफ्टि० के रूप में

#### पंजाब

कुमारी बलबीर कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7114) तथा कुमारी राजबंस कौर मान (एन० सी० सी०/जी० डी०/7117), 30 जून 1969।

#### असम

कुमारी बीधिका बासु (एन० सी० सी०/जी० डी०/7329), 30 जून 1969।

#### केरल

श्रीमती श्रीटिक्स एलेक्सिस (एन० सी० सी०/जी० डी०/7826), 9 जुलाई 1969।

#### तमिललनाडू

कुमारी डी० सन्धामणी (एन० सी० सी०/जी० डी०/5432), कुमारी के० एस० सावित्री (एन० सी० सी०/जी० डी०/5433), कुमारी के० ए० गनान मणी (एन० सी० सी०/जी० डी०/5434), कुमारी सीनीअम्मल (एन० सी० सी०/जी० डी० 5435), 5 जुलाई 1970।

#### मध्य प्रदेश

कुमारी मोहिनी गिल (एन० सी० सी०/जी० डी०/5730), श्रीमती संतोष लाल (एन० सी० सी०/जी० डी०/5731), 5 जुलाई 1970।

#### उत्तर प्रदेश

कुमारी चन्द्र सरकार (एन० सी० सी०/जी० डी०/6664), कुमारी कंचन मेहरोत्रा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6665), श्रीमती सुभाष कत्याल (एन० सी० सी०/जी० डी०/6666), श्रीमती निर्मला शर्मा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6667), कुमारी जमीला कबीर (एन० सी० सी०/जी० डी०/6668), कुमारी नसीम बानो सिद्दिकी (एन० सी० सी०/जी० डी०/6669), कुमारी उमा शर्मा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6670), कुमारी सुनीति मुखर्जी (एन० सी० सी०/जी० डी०/6671), कुमारी सावित्री सिंह (एन० सी० सी०/जी० डी०/6672), कुमारी सरोज बोहरा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6673), श्रीमती दया गुप्ता (एन० सी० सी०/जी० डी०/6674), कुमारी पद्मा जी० शाहनी (एन० सी० सी०/जी० डी०/6675), 5 जुलाई 1970।

#### दिल्ली

कुमारी पुष्पा देवी छाबरा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6816), 5 जुलाई 1970।

#### पंजाब

कुमारी नरिन्दर कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7117), कुमारी मोहिन्दर कौर (एन० सी० सी०/जी० डी०/7118), 5 जुलाई 1970।

#### मणिपुर

कुमारी ज्योत्सना लाहिरी (एन० सी० सी०/जी० डी०/7331), 5 जुलाई 1970।

#### असम

कुमारी रेनुका दास (एस० सी० सी०/जी० डी०/7332), 5 जुलाई 1970।

#### मैसूर

कुमारी गीता व्यास तन्त्री (एन० सी० सी०/जी० डी०/7526) 5 जुलाई 1970।

#### आंध्र प्रदेश

कुमारी पुल्लारानी सरला देवी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8056), कुमारी बी० रेबक्का (एन० सी० सी०/जी० डी०/8058), 5 जुलाई 1970।

## गुजरात

कुमारी कमला सी० पटेल (एन० सी० सी०/जी० डी०/8757), कुमारी निक्सा हीरा लाल देसाई (एन० सी० सी०/जी० डी०/8758), कुमारी पटवारी दिव्यप्रभा चुनीलाल (एन० सी० सी०/सी० सी०/जी० डी०/8759), कुमारी पुष्पा भट्ट (एन० सी० सी०/जी० डी०/8760), कुमारी गांधी फ्रेनी मनेक्शा (एन० सी० सी०/जी० डी०/8761), 5 जुलाई 1970।

## जम्मू तथा कश्मीर

कुमारी गीता कुमारी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8906), 5 जुलाई 1970।

सं० 10, दिनांक 3 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित को पदोन्नत करते हैं:—

## बालिका डिबीजन (सीनियर स्कन्ध)

## 2/लेफ्टि० के रूप में

## गोआ

कुमारी मंगला केनी, (एन० सी० सी०/जी० डी०/5053), 16 जुलाई 1970।

## लेफ्टि० केप्टन के रूप में

## तमिलनाडु

कुमारी विशालाक्षी एकाम्ब्रम (एन० सी० सी०/जी० डी०/5427), 6 जून 1970।

## उत्तर प्रदेश

श्रीमती रीता दीन (कुमारी नाम रीता रोजारियो) (एन० सी० सी०/जी० डी०/6519), कुमारी लीला पाल (एन० सी० सी०/जी० डी०/6520), श्रीमती विजय लक्ष्मी प्रधान (एन० सी० सी०/जी० डी०/6524), श्रीमती सोम लता गुप्ता (एन० सी० सी०/जी० डी०/6525), 5 अक्टूबर 1970।

## 2/लेफ्टि० के रूप में

कुमारी सावित्री देवी (एन० सी० सी०/जी० डी०/6623), कुमारी कमल कुमारी कपूर (एन० सी० सी०/जी० डी०/6630), कुमारी जहीदा अहमद (एन० सी० सी०/जी० डी०/6621), कुमारी आशा देवी (एन० सी० सी०/जी० डी०/6626), कुमारी सुशीला नन्दा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6633), श्रीमती वीना सरन (कुमारी नाम वीना देवी जैन) (एन० सी० सी०/जी० डी०/6634), कुमारी वीना (एन० सी० सी०/जी० डी०/6627), श्रीमती विमलेश प्रभा सखूजा (एन० सी० सी०/जी० डी०/6628), श्रीमती निर्मला दीक्षित (एन० सी० सी०/जी० डी०/6631), कुमारी कुसुम अग्रवाल (एन० सी० सी०/जी० डी०/6636) 16 जुलाई 1970।

श्री मति जी० एन० ब्राउन (एन० सी० सी०/जी० डी०/6608), 17 जुलाई 1969।

## केप्टन मेजर के रूप में

श्रीमती कमला श्रीवास्तव (एन० सी० सी०/जी० डी०/डी०/6636 6502), 24 जुलाई 1970।

## केप्टन मेजर के रूप में

## राष्ट्रीय प्रशासन

कुमारी उमा रत्ना (एन० सी० सी०/जी० डी०/7002), 24 जुलाई 1970।

## लेफ्टि० केप्टन के रूप में

## पंजाब

श्रीमती सतबन्त कौर (एन० एस० सी०/जी० डी०/7013), 28 जून 1969।

## 2/लेफ्टि० लेफ्टि० के रूप में

कुमारी विशामान (एन० सी० सी०/जी० डी०/7095), 16 जुलाई 1970।

कुमारी सतविन्दर एच० सिंह (एन० सी० सी०/जी० डी०/7099), 6 अप्रैल 1970।

## हरियाणा

श्रीमती राजकुमारी (एन० सी० सी०/जी० डी०/7088), कुमारी पुष्पा कुमारी जैन (एन० सी० सी०/जी० डी०/7096), 16 जुलाई 1970।

## केप्टन मेजर के रूप में

## मैसूर

कुमारी टी० के० नागम्बल (एन० सी० सी०/जी० डी०/7500), 18 अगस्त 1970

## 2/लेफ्टि० लेफ्टि० के रूप में

## आंध्र प्रदेश

कुमारी के० विजयकुमारी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8047), कुमारी सरोजनी चार्ल्स (एन० सी० सी०/जी० डी०/8048), श्रीमती प्रेम प्यारी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8049), कुमारी पी० वी० वसन्ध कुमारी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8051), 16 जुलाई 1970।

## राजस्थान

कुमारी मन्जुला जिन्दल (एन० सी० सी०/जी० डी०/8517), 17 जुलाई 1969।

## गुजरात

कुमारी सुधा एन० मेहता (एन० सी० सी०/जी० डी०/8746), 6 अक्टूबर 1970।

कुमारी एन० के० त्रिवेदी (एन० सी० सी०/जी० डी०/8744), 16 जुलाई 1970।

सं० 11, दिनांक 30 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का 18 नवम्बर 1970 से राष्ट्रीय कैडेट कौर से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं। उनके नामों के आगे कोष्ठकों में दिया गया समय राष्ट्रीय कैडेट कौर में वरिष्ठता अथवा पदोन्नति अथवा किसी अन्य प्रकार के लाभ के लिए नहीं निर्णीत जाएगी।

## जूनियर डिबीजन (सेना स्कन्ध)

## महाराष्ट्र

एस०/ओ० ए० जी० आरस्थी (एन० सी० सी०/जे०/81112) (1 अप्रैल 1970 से 17 नवम्बर 1970)।

**बिहार**

टी०/ओ० राजेन्द्र प्रसाद शाही (एन० सी० सी० जे०/1541),  
(26 नवम्बर 69 से 17 नवम्बर 1970)।

**पंजाब**

एफ०/ओ० विशान दास सेनी (एन० सी० सी०/जे०/7480),  
(19 मई 1970 से 17 नवम्बर 1970)

**आसाम**

एफ०/ओ० मालसाबमा (एन० सी० सी० जे०/30), (25  
मार्च 66 से 17 नवम्बर 1970)।

एस०/ओ० के० आर० बौराह (एन० सी० सी० जे०/166),  
(5 नवम्बर 69 से 17 नवम्बर 1970)।

**राजस्थान**

एस०/ओ० नाबल सिंह निर्माण (एन० सी० सी० जे०/  
31293), (31 मार्च 70 से 17 नवम्बर 1970)।

**जूनियर डिब्रीजन (नौसेना स्कन्ध)****केरल**

एस०/ओ० एस० ए० जेम्स (एन० सी० सी० जे० एन०/  
25223), (1 जुलाई 70 से 17 नवम्बर 1970)।

**जूनियर डिब्रीजन (वायु सेना स्कन्ध)****मैसूर**

एफ०/ओ० एस० पी० रामोथम राव (एन० सी० सी० जे० ए०/  
23027), (17 अक्टूबर 69 से 17 नवम्बर 1970)।

एस०/ओ० एच० सत्यनारायण (एन० सी० सी० जे० ए०/  
23147), (14 जुलाई 70 से 17 नवम्बर 1970)।

**आंध्र प्रदेश**

टी०/ओ० पी० पी० रामन राव (एन० सी० सी० जे० ए०/  
41302) (29 अप्रैल 69 से 17 नवम्बर 1970)।

**उड़ीसा**

एफ०/ओ० चितामणि आचार्य (एन० सी० सी० जे० ए०/  
11098), (22 जून 70 से 17 नवम्बर 1970)।

सं० 12, दिनांक 9 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित  
अधिकारी को उसके सामने दी गई तारीख से राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर  
से सेवा मुक्त करते हैं।

**सीनियर डिब्रीजन (सेना स्कन्ध)****महाराष्ट्र**

ले० एस० किशन राव (एन० सी० सी०/602), 16  
जुलाई 1968।

**उत्तर प्रदेश**

कैप्टन राजपाल सिंह (एन० सी० सी०/4316), 20 फरवरी  
1970।

**सीनियर डिब्रीजन (वायु सेना स्कन्ध)****आंध्र प्रदेश**

फ्लाइट अफसर के० गोपाला राव (एन० सी० सी०/8542),  
24 सितम्बर 1970।

**जूनियर डिब्रीजन (सेना स्कन्ध)****उत्तर प्रदेश**

सी०/ओ० यू० पाण्डे (एन० सी० सी० जे०/12206),  
11 जुलाई 1970।

सी०/ओ० आर० के० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/12019),  
1 अक्टूबर 1970।

सी०/ओ० आर० जी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/12029),  
1 जून 1970।

सी०/ओ० हीरा सिंह (एन० सी० सी० जे०/12133),  
1 अप्रैल 1970।

एफ०/ओ० राजेन्द्र प्रसाद (एन० सी० सी० जे०/12246),  
1 जुलाई 1970।

एफ०/ओ० जी० सी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/12193),  
4 जुलाई 1970।

एफ०/ओ० के० पी० सिंह (एन० सी० सी० जे०/12218),  
24 जून 1970।

सी०/ओ० एस० के० सिंह (एन० सी० सी० जे०/12115),  
एफ०/ओ० शिव शंकर लाल (एन० सी० सी० जे०/12257),  
एफ०/ओ० ए० आर० गुप्ता (एन० सी० सी० जे०/13004),  
1 अप्रैल 1970।

**दिल्ली**

सी०/ओ० आर० एन० डोगरा (एन० सी० सी० जे०/  
6037), 1 अप्रैल 1970।

**पंजाब**

एस०/ओ० काबल सिंह (एन० सी० सी० जे०/7679),  
1 अप्रैल 1969।

**मैसूर**

सी०/ओ० एम आर० नारायणास्वामी (एन० सी० सी०  
जे०/23002), 12 जुलाई 1970।

**गुजरात**

टी०/ओ० बी० के० थिटे (एन० सी० सी० जे०/35256),  
2 जून 1968 सी०/ओ० के० जी० गनात्तरा (एन० सी० सी०  
जे०/22008) 27 अप्रैल 1969।

**जूनियर डिब्रीजन (वायु सेना स्कन्ध)****उत्तर प्रदेश**

सी०/ओ० एस० बी० सिंह (एन० सी० सी० जे० ए०/  
12041), 10 नवम्बर 1970।

**आंध्र प्रदेश**

टी०/ओ० डी० देबदानम (एन० सी० सी० जे० ए०/41420),  
1 अप्रैल 1970 ।

सं० 13, दिनांक 19 नवम्बर, 1970—राष्ट्रपतिनिम्नलिखित अफसरों को राष्ट्रीय कैडेट कोर से 6 नवम्बर 1970 से सेवामुक्त करते हैं। उनके नाम के सामने कोष्ठकों में दी गयी अवधि, वरिष्ठता या पदोन्नति या एन० सी० सी० में अन्य किसी लाभ के लिए नहीं गिनी जाएगी :—

**जूनियर डिप्टीजम (सेना स्कन्ध)****महाराष्ट्र**

एफ०/ओ० जी० वी० पाण्डे (एन० सी० सी० जे०/5242),  
1 जुलाई 69 से 5 नवम्बर 70 तक ।

**तमिलनाडु**

सी० ओ० वी० डण्डापाणी (एन० सी० सी० जे०/9173),  
1 जुलाई 70 से 6 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० ए० चिदाम्बरम (एन० सी० सी० जे०/51527),  
19 जून, 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

**मध्य प्रदेश**

एस०/ओ० उत्तम कुमार (एन० सी० सी० जे०/5430),  
16 जुलाई 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० एम० एस० तेज (एन० सी० सी० जे०/5544),  
19 नवम्बर 59 से 5 नवम्बर 70 तक ।

**उत्तर प्रदेश**

सी०/ओ० रमा शंकर (एन० सी० सी० जे०/12099),  
31 जुलाई 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

एस०/ओ० एस० के० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/13227),  
1 अगस्त 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० जे० पी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/13393),  
12 अगस्त 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

एस०/ओ० नूर मोहम्मद (एन० सी० सी० जे०/13087),  
6 मई 66 से 5 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० एस० एम० फराव (एन० सी० सी० जे०/13355),  
9 मई, 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

**पंजाब**

टी०/ओ० चरनजीत सिंह (एन० सी० सी० जे०/7825),  
11 जनवरी 67 से 5 नवम्बर 70 तक ।

**हरियाणा**

एस०/ओ० एन० एन० गुप्ता (एन० सी० सी० जे०/7509),  
3 दिसम्बर 67 से 5 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० दर्शन लाल जैन (एन० सी० सी० जे०/7653),  
31 जुलाई 65 से 5 नवम्बर 70 तक ।

एस०/ओ० प्रताप सिंह तनवार (एन० सी० सी० जे०/7841) 23 अगस्त 68 से 5 नवम्बर 70 तक ।

एस०/ओ० राम सिंह फोगत (एन० सी० सी० जे० 7797),  
24 अगस्त 68 से 5 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० वी० सी चटर्जी (एन० सी० सी० जे०/8017),  
23 अगस्त 68 से 5 नवम्बर 70 तक ।

एफ०/ओ० जी० सी० जैन (एन० सी० सी० जे०/7525),  
25 अगस्त 68 से 5 नवम्बर 70 तक ।

एस०/ओ० एच० सी० बोकन (एन० सी० सी० जे०/7882),  
3 जून 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

**राजस्थान**

एफ०/ओ० बलजीत सिंह (एन० सी० सी० जे०/7863),  
10 अप्रैल 69 से 5 नवम्बर 70 तक ।

**मैसूर**

एफ०/ओ० पी० सुमथी पाल (एन० सी० सी० जे०/23031)  
22 जुलाई 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

एफ०/ओ० रामचन्द्र रेड्डी (एन० सी० सी० जे०/23021),  
2 सितम्बर 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

एस०/ओ० महावीर भीमा राव कलघटगी (एन० सी० सी० जे०/23090) 12 जून, 65 से 31 अगस्त 70 तक ।

टी०/ओ० आर० नरसिम्हन (एन० सी० सी० जे०/23292),  
18 मई 67 से 5 नवम्बर 70 तक ।

**आंध्र प्रदेश**

एस०/ओ० एस० ए० नकवी (एन० सी० सी० जे०/41172),  
22 जून 70 से 5 नवम्बर तक ।

टी०/ओ० टी० आर० राधाकृष्ण (एन० सी० सी० जे०/41372) 13 सितम्बर 69 से 5 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० के० कोण्डाहया (एन० सी० सी० जे०/41339)  
7 अप्रैल 67 से 31 मई 70 तक ।

**गजरात**

एफ०/ओ० यू० वी० स्वादिया (एन० सी० सी० जे०/3258), 5 जनवरी 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

एस०/ओ० एस० टी० मंगतानी (एन० सी० सी० जे०/35137) 1 सितम्बर 69 से 5 नवम्बर 70 तक ।

एस०/ओ० के० आर० पटेल (एन० सी० सी० जे०/35147),  
1 अप्रैल 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० एन० एम० दर्जी (एन० सी० सी० जे०/35285),  
1 जुलाई 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० के० सी० भट्ट (एन० सी० सी० जे०/35337),  
25 जून 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० के० एस० जाजल (एन० सी० सी० जे०/35338),  
15 जून 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

**जूनियर डिबीजन (बायु सेना स्कन्ध)****दिल्ली**

एस०/ओ० आर० डी० गुप्ता (एन० सी० सी० जे० ए०/6123), 25 अगस्त 67 से 29 सितम्बर 69 तक ।

**पंजाब**

टी०/ओ० मोहन लाल अरोड़ा (ए० सी० सी० जे० ए०/7909), 1 जून 68 से 5 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० निरकेवल सिंह (एन० सी० सी० जे० ए०/7835), 30 मई 68 से 5 नवम्बर 70 तक ।

**गुजरात**

एस०/ओ० बी० टी० रोचवानी (एन० सी० सी० जे० ए०/35191), 10 मई 70 से 5 नवम्बर 70 तक ।

सं० 14, दिनांक 3 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित महिला अधिकारियों को एन० सी० सी० से 19 नवम्बर 70 से सेवा मुक्त करते हैं । नाम के सामने कोष्ठक में दी गयी अवधि राष्ट्रीय कैडेट कोर में वरिष्ठता या पदोन्नति या अन्य किसी लाभ के लिये नहीं गिनी जायगी :

**बालिका डिबीजन (जूनियर स्कन्ध)****पश्चिमी बंगाल**

एस०/ओ० (कुमारी) प्रणति सरकार (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/13017) 19 मई 69 से 18 नवम्बर 70 तक ।

टी०/ओ० (कुमारी) कृष्णा बनर्जी (ए० सी० सी० जे०/जी० डी०/13053) (15 जुलाई 70 से 18 नवम्बर 70 तक)

टी०/ओ० (श्रीमति) महालक्ष्मी रूपल (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/13050) (1 मार्च 70 से 18 नवम्बर 70 तक)

टी०/ओ० (श्रीमति) मंजूश्री दत्ता (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/13041), (1 नवम्बर 69 से 18 नवम्बर 70 तक)

**बिहार**

एस०/ओ० (श्रीमति) जी० पी० सिन्हा (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/14020) (11 फरवरी, 69 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

**उत्तर प्रदेश**

एस०/ओ० (श्रीमति) उर्मिला कोहली (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/14515) (26 फरवरी 70 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

**मैसूर**

टी०/ओ० (श्रीमति) एस० गुल्बानी (कुमारी नाम सुदर्शन कुमारी) (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/15031) (2 अगस्त 69 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

**दिल्ली**

टी०/ओ० (कुमारी) एच० एन० अम्बूजा (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/18538), (5 जुलाई 70 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

एस०/ओ० (कुमारी) कोन्चुथो सिया पी० जे० अम्पानी (जे०सिफ) (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/18532) (1 मार्च 70 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

टी०/ओ० (कुमारी) सुधा बाबूराव लेड (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/18549) 15 जुलाई 70 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

टी०/ओ० (कुमारी) हरीश कुमारी कोहली (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/18542) (1 मई 70 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

**केरल**

एफ०/ओ० (श्रीमति) सरम्मा जचारिया (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/19014) (1 मई 70 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

एफ०/ओ० (श्रीमति) एन० पी० पारुकुट्टी (एन० जी० सी० जे०/डी०/19003) (11 अगस्त 70 से 18 नवम्बर 70) ।

**आंध्र प्रदेश**

टी०/ओ० (श्रीमति) तेली रचेल नवरला मंजरी (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/19574) 18 जून 69 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

**गुजरात**

टी०/ओ० (कुमारी) दयावती शामजी दामा (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/22015) (16 जून 69 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

**जम्मू तथा कश्मीर**

एस०/ओ० (कुमारी) अडेलिनी रूही (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/123) (29 फरवरी 67 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

टी०/ओ० (कुमारी) जे० के० कौल (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/230) (31 मई 64 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

टी०/ओ० (कुमारी) प्रेम लता गोहिल (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/5500) (31 मई 67 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

टी०/ओ० (कुमारी) स्वर्ण शर्मा (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/5605) (30 सितम्बर 69 से 18 नवम्बर 70 तक) ।

वी० फराब, डाइरेक्टर ऑफ पर्सनल

**(राष्ट्रीय रक्षा अकादमी)**

सं० 15, दिनांक 16 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

निम्नलिखित व्यक्ति को उस के नाम के सामने दी गई तिथि से 2 वर्ष की परखावधि पर अस्थायी पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी I के रूप में—श्री कृष्ण प्रसाद मेहथा—5 सितम्बर 70 ।

**महानिदेशक सशस्त्र सेना****चक्रित्सा सेवा का कार्यालय**

सं० 16, दिनांक 16 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित तदर्थ नियुक्ति परिवार नियोजन सशस्त्र सेना में चक्रित्सा अधिकारी (श्रेणी-I राजपत्रित) के पद पर दिनांक 21 नवम्बर 1970 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि तक अथवा संघ

लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मिल जाने तक जो कोई भी गैहले हो करते हैं :

डा० कार्तिक चन्द्र मुखर्जी

वी० ए० वलियापरमपिल, अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं० 17, दिनांक 10 दिसंबर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

**कमान और स्टाफ**

डायरेक्टर जनरल एन०सी० सी०, रक्षा मंत्रालय के रूप में मेजर जनरल एम० जी० हजारी (आई० सी० 646) पी० वी० एस० एम० ए० वी० एस० एम० 30 जून 1970।

पी० कृष्णामूर्ती संयुक्त सचिव

**सेना मुख्यालय**

(ए० जी० शाखा)

सं० 1, दिनांक 11 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं।

श्री एस०टी० नागारथिनस को दिनांक 31-10-70 से सांख्यिकी ऑफिसर के पद पर (ग्रेड IV पोस्ट ऑफ आई० एस० एस०) श्री पी० सी० थौमस के स्थान पर जिन्का तबादला हो चुका है, नियुक्त किया जाता है।

सं० 20, दिनांक 9 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति श्री डी० आर० एस० कपूर, स्थायी अधीक्षक की सिविलियन स्टाफ आफिसर के पद पर स्थानापन्न रूप से दिनांक 23-11-70, से ए० एफ० एच० क्यू० सिविल सर्विस में आगामी आदेश तक श्री डी० एस० वर्मा जो 120 दिन की छुट्टी पर ह, के स्थान पर पदोन्नति करते हैं।

आर० डी० जैन, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 21, दिनांक 14 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

**थल सेना मुख्यालय**

ए० जी० के रूप में

लेफ्टि० जनरल एच० के० सिबल (आई० सी०-254) एम० वी० सी०—23 नवम्बर, 1970।

पी० कृष्णामूर्ति, संयुक्त सचिव

सं० 22, दिनांक 17 दिसम्बर, 1970—भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17100/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी० 1 (एक्स०)/6910/वी०/डी० (मेड०) दिनांक 31 दिसम्बर, 1965 द्वारा संशोधित थल सेना अनुदेश 208/59 तथा सं० 17100/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी०-1

(एक्स)/2000/डी० (मेड०) दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

**नियमित सेना**

**अल्पकालीन कमीशन**

**कप्टेन के रैंक में (परख पर)**

गुरदरशन सिंह सिधू एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-7501), ए० एम० सी०, 18 जनवरी, 1966।

(21 जनवरी 1967 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 196, दिनांक 3 जनवरी, 1967 24 जून 1967 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1753 दिनांक 8 जून 1967 और 1 फरवरी, 1969 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 236(ii) दिनांक 17 जनवरी, 1969 को, जो इस अफसर से संबंधित है, रद्द किया जाता है।)

(मिस) सोभा सिल, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-7544), ए० एम० सी०, 21 मार्च, 1966।

(17 दिसम्बर, 1966 को भारत सरकार के राजपत्र में छपे रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3152 दिनांक 30 नवम्बर, 1966 और 9 सितम्बर, 1967 को भारत सरकार के राजपत्र में छपे रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2422 दिनांक 26 अगस्त, 1967 को, जो इस अफसर से संबंधित है, रद्द किये जाते हैं।)

(मिस) जयती मुखर्जी, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-7545), ए० एम० सी०, 21 मार्च, 1966।

(17 दिसम्बर, 1966 को भारत के राजपत्र में छपे रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3152, दिनांक 30 नवम्बर, 1966, 21 दिसम्बर, 1967 को भारत के राजपत्र में छपे रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3251, दिनांक 29 नवम्बर 1967 और 31 मई 1969 को भारत के राजपत्र में छपे रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1302 (बी०) दिनांक 6 मई, 1969 को, जो इस अफसर से संबंधित है, रद्द किये जाते हैं।)

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

सं० 23, दिनांक 9 दिसम्बर, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

**नियमित सेना**

**(ए० ओ० सी०)**

निम्नलिखित हेड क्लर्क श्रेणी (i) दो वर्ष की परख अवधि पर उसके नाम के सामने दिए गए दिनांक से अस्थायी आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन (प्रशासन) के रूप में :—

श्री पी० एस० गाथोके—17 नवम्बर, 1970 (पूर्वाह्न)।

निम्नलिखित सी० एस० के श्रेणी (i) दो वर्ष की परख अवधि पर उनके नाम के सामने दिए गए दिनांक से अस्थायी आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन (भंडार) के रूप में :—

श्री ओमकार नाथ—16 नवम्बर, 1970 (पूर्वाह्न)।

श्री ओ० पी० नारंग—2 नवम्बर, 1970 (पूर्वाह्न)।

श्री एस० तिलक—1 नवम्बर, 1970 (पूर्वाह्न) ।

श्री पी० वी० गांगुली—14 नवम्बर, 1970 (पूर्वाह्न) ।

वी० ए० वलियापरमपिल, अवर सचिव

सं० 24, दिनांक 16 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को 3 दिसम्बर, 1970 से उनके वेतन और पेंशन पर कोई असर डाले बिना, डाईरेक्टर डिफेन्स इन्सटिट्यूट आफ वर्क स्टडी, लन्दौर, के पद पर रहते हुए ब्रिगेडियर का स्थानीय रैंक प्रदान करते हैं :—

लेफ्टिनेन्ट कर्नल (कार्यकारी कर्नल) ओ० पी० चोपड़ा (आई० सी० 4626) ई० एम० ई० ।

सं० 25 दिनांक 17 दिसम्बर, 1970—निम्नलिखित अफसर को मास्को में भारतीय दूतावास के सैनिक सहचारी के रूप में लेफ्टि० कर्नल का स्थायी रैंक प्रदान किया जाता है जिसका उनके वेतन और पेंशन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा :—

मेजर गुरिन्द्र सिंह (आई० सी०-6123) 4 हौर्स, 8 फरवरी, 1970 ।

कान्ति चन्द्र बसु, उप-सचिव

सं० 26, दिनांक 27 अक्तूबर 1970—परख अवधि पूरी होने पर राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की नियुक्ति को पक्का करते हैं :—

#### (नियमित सेना)

##### स्थायी कमीशन

ए० बी० टी० के० राव (एम० आर० 1819), सैनिक डाक्टरी कोर, 21 फरवरी, 1965 ।

आर० एस० चौधरी अवर सचिव

सं० 27 दिनांक 16 दिसम्बर, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

#### नियमित सेना

##### स्थायी कमीशन

##### कर्नल से ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

कर्नल वी० चन्द्र (वी० 18) आर० वी० सी०—25 फरवरी, 1970 ।

कान्ति चन्द्र बसु, उप-सचिव

सं० 28 दिनांक 16 दिसम्बर, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

#### नियमित सेना

##### इन्फैन्ट्री

##### डोगरा रेजिमेन्ट

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जे० सी०-34768) और नायब सूबेदार राम रथ (जे० सी०-34617)—1 सितम्बर, 1970 ।

नायब सूबेदार नानक चन्व (जे० सी०-48660)—24 सितम्बर, 1970 ।

#### नियमित सेना

##### 1 जी० आर०

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ब्रिशन सिंह थापा (जे० सी०-33962)—4 मई, 1970 ।

नायब सूबेदार शिव प्रसाद आले (जे० सी०-34547) 6 मई, 1970 ।

##### 3 जी० आर०

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नर सिंह थापा (जे० सी०-35406); नायब सूबेदार वीर बहादुर थापा (जे० सी०-36706)—18 जून, 1970 ।

##### 8 जी० आर०

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भीमबहादुर गुरंग (जे० सी०-35160)—2 अक्तूबर, 1970 ।

##### सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क टेक बहादुर राई (जे० सी०-22285), 9 अक्तूबर, 1970 ।

##### 9 जी० आर०

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शेर बहादुर मल्ल (जे० सी०-36571)—5 जून, 1970 ।

##### कुमाऊं रेजिमेन्ट

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार छालु राम (जे० सी०-30532)—8 मई, 1970 ।

नायब सूबेदार महिपाल सिंह (जे० सी०-30448)—7 जून, 1970 ।

नायब सूबेदार गुसाई सिंह (जे० सी० 23655)—15 जून, 1970 ।

नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-34627)—17 जून, 1970 ।

नायब सूबेदार ब्रिशन सिंह (जे० सी०-36140)—4 अगस्त, 1970 ।

नायब सूबेदार गंगा दत्त (जे० सी०-37030)—25 सितम्बर 1970 ।

नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जे० सी०-36143)—14 मई, 1970 ।



**मद्रास रेजिमेन्ट****सूबेदार के रैंक में**

नायब सूबेदार ए० पी० पुम्पोत्तम दास (जे० सी०-20872)  
—20 मई, 1970।

नायब सूबेदार शिवन चेट्टियार (जे० सी०-35537)—  
23 सितम्बर, 1970।

**सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में**

नायब सूबेदार क्लर्क पी० करुप्पसामि (जे० सी०-24807).  
5 अक्तूबर, 1970।

**राजपूताना राइफल्स****सूबेदार के रैंक में**

नायब सूबेदार बिपती सिंह (जे० सी०-34312)—17  
अक्तूबर, 1970।

**प्रिमेरियस****सूबेदार के रैंक में**

नायब सूबेदार रूप चन्द (जे० सी०-23877)—24 जुलाई,  
1970।

नायब सूबेदार अमि प्रकाश (जे० सी०-27720)—31 अगस्त,  
1970।

नायब सूबेदार करण सिंह (जे० सी०-23283)—21  
सितम्बर, 1970।

नायब सूबेदार रामजी लाल (जे० सी० 25908)—24  
सितम्बर, 1970।

**बंगाल इंजीनियर ग्रुप****सूबेदार के रैंक में**

नायब सूबेदार गोवरधन (जे० सी०-23350)—2 सितम्बर,  
1970।

नायब सूबेदार संपूरण सिंह (जे० सी०-26126), नायब  
सूबेदार हरी दत्त (जे० सी०-38079)—3 सितम्बर, 1970।

नायब सूबेदार गुरचरन सिंह (जे० सी०-21168)—7  
सितम्बर, 1970।

**सूबेदार क्लर्क (स्टोर) के रैंक में**

नायब सूबेदार क्लर्क आई० जोसेफ (जे० सी०-13017),  
5 सितम्बर, 1970।

**सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में**

नायब सूबेदार क्लर्क सतेन्द्रपाल सिंह (जे० सी०-19502)—  
4 सितम्बर, 1970।

नायब सूबेदार क्लर्क धरमा नन्द (जे० सी०-19504),  
5 सितम्बर, 1970।

नायब सूबेदार क्लर्क बलबीर सिंह (जे० सी०-19507),  
18 सितम्बर, 1970।

394 GI/71

नायब सूबेदार क्लर्क साधू सिंह (जे० सी०-19508),  
17 सितम्बर, 1970।

नायब सूबेदार क्लर्क पूरण सिंह (जे० सी०-19509),  
20 सितम्बर, 1970।

नायब सूबेदार क्लर्क चन्द्र बल्लभ (जे० सी०-19511),  
23 सितम्बर, 1970।

नायब सूबेदार क्लर्क सुरेन्द्रा दत्त (जे० सी०-20248),  
29 सितम्बर, 1970।

नायब सूबेदार क्लर्क बख्शदेव राज (जे० सी०-20251);  
नायब सूबेदार क्लर्क गुरबचन सिंह (जे० सी०-25238)—1  
अक्तूबर, 1970।

**कोर आरु सिगमल्स****सूबेदार (जी०डी) के रैंक में**

नायब सूबेदार भगवन्त सिंह (जे० सी०-32064) : नायब  
सूबेदार एम० सी० जान (जे० सी०-32065) : नायब सूबेदार  
गुरबचन सिंह बजवा (जे० सी० 32069) 1 अक्तूबर, 1970  
नायब सूबेदार पी० गोपीनाथन (जे० सी०-32070) :  
3 अक्तूबर, 1970

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-32077)—4 अक्तूबर,  
1970।

नायब सूबेदार हुन्स राज (जे० सी०-32078) —5 अक्तूबर,  
1970।

नायब सूबेदार तरलोचन सिंह (जे० सी०-32079) — 6  
अक्तूबर, 1970।

नायब सूबेदार गुलबन्त सिंह (जे० सी०-32081) — 9  
अक्तूबर, 1970।

नायब सूबेदार पिसोरी लाल (जे० सी०-32085) — 10  
अक्तूबर, 1970।

नायब सूबेदार गनपत राय (जे० सी०-32087) : नायब  
सूबेदार संगत सिंह (जे० सी० 32088) : 12 अक्तूबर, 1970।

नायब सूबेदार नछतर सिंह (जे० सी०-32089) — 15  
अक्तूबर, 1970।

नायब सूबेदार लेख राज (जे० सी०-32090) — 18 अक्तू-  
बर, 1970।

नायब सूबेदार ए० कुमारन (जे० सी०-32091) : नायब  
सूबेदार हरबंश सिंह (जे० सी०-32092)—22 अक्तूबर, 1970।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-32093) — 24  
अक्तूबर, 1970।

नायब सूबेदार ग्यान सिंह (जे० सी०-32094) — नायब  
सूबेदार धरम पाल (जे० सी०-32098) : नायब सूबेदार  
मोहन लाल (जे० सी०-32101) : नायब सूबेदार भजन सिंह  
(जे० सी०-32103)— 26 अक्तूबर, 1970।

नायब सूबेदार सी० एल० आर्ज (जे० सी०-32104)  
नायब सूबेदार जागीर सिंह (जे० सी०-32105) — 29 अक्तूबर  
1970।

**सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में**

नायब सूबेदार प्यारा सिंह (जे० सी०-27326) — 17 अक्टूबर, 1970 ।

**सूबेदार (एफ० आफ एस०) के रैंक में**

नायब सूबेदार ए० वी० चौई (जे० सी०-40754) :  
नायब सूबेदार सरवन सिंह मंगत (जे० सी०-48209) — 3 जुलाई, 1970 ।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-48210) : नायब सूबेदार करतार चन्द (जे० सी०-48211) : नायब सूबेदार परताप सिंह (जे० सी०-48212) : नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जे० सी०-48214) : नायब सूबेदार एस० डी० गनेश (जे० सी०-48215) : नायब सूबेदार गुरुबचन सिंह (जे० सी०-48216) — 18 जुलाई, 1970 ।

नायब सूबेदार गुरचरन सिंह (जे० सी०-48217) : नायब सूबेदार ऊपेन्द्रो अपटो (जे० सी०-48218) : नायब सूबेदार उदय भान (जे० सी०-48219) : नायब सूबेदार कामता सिंह (जे० सी०-48220) : नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-48225) : नायब सूबेदार सुरेन्द्र नाथ पृजारी (जे० सी०-48226) : नायब सूबेदार एम० एस० श्रीधरन (जे० सी०-48227) — 18 अगस्त, 1970 ।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-48228) : नायब सूबेदार जय दत्त जोशी (जे० सी०-48230) : नायब सूबेदार आत्म सिंह (जे० सी०-48231) : नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जे० सी०-48233) : नायब सूबेदार हिमन्सू राय मनकद (जे० सी०-48234) : नायब सूबेदार इन्द्र पाल सिंह (जे० सी०-48235) : नायब सूबेदार एस० कुप्पू स्वामी (जे० सी०-48237) : नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे० सी०-49732) — 30 अगस्त, 1970 ।

**सूबेदार (वाई० आफ एस०) के रैंक में**

नायब सूबेदार हरदयाल सिंह (जे० सी०-37282) : नायब सूबेदार एन० नारायणन (जे० सी०-42799) : नायब सूबेदार समुन्द्र सिंह (जे० सी०-44761) : नायब सूबेदार कृष्ण चन्द्र महाराना (जे० सी०-48199) : नायब सूबेदार प्रसन्न कुमार पटनायक (जे० सी०-48200) : नायब सूबेदार पी० वी० शंकरन (जे० सी०-48201) : नायब सूबेदार आर० के० मेहता (जे० सी०-48202) — 1 जन, 1970 ।

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जे० सी०-48203) : नायब सूबेदार रामेश्वर सिंह (जे० सी०-48204) : नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी०-48205) : नायब सूबेदार सुकेश कुमार (जे० सी०-48206) : नायब सूबेदार के० नारायणन (जे० सी०-48208) : नायब सूबेदार राम चन्द (जे० सी०-49726) : नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-49727) : नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-49728) : नायब सूबेदार हीरा सिंह मोगरा (जे० सी०-49729) — 10 जुलाई, 1970 ।

**वफतारबग्य फोर****रिसालदार (क्लर्क) के रैंक में**

नायब रिसालदार (क्लर्क) हरभजन सिंह (जे० सी०-43702) — 11 अगस्त, 1970 ।

नायब रिसालदार (क्लर्क) भगवान सिंह (जे० सी०-44569) — 8 अक्टूबर, 1970 ।

नायब रिसालदार (क्लर्क) हरी सिंह (जे० सी०-44570) — 21 अक्टूबर, 1970 ।

**रिसालदार मेजर के रैंक में**

रिसालदार श्री राम (जे० सी०-15042) — 6 अक्टूबर, 1970 ।

**रिसालदार के रैंक में**

नायब रिसालदार जय भगवान सिंह (जे० सी०-39797) — 25 मार्च, 1970 ।

नायब रिसालदार नारायण सिंह (जे० सी० 26485) — 23 मई, 1970 ।

नायब रिसालदार फतेह सिंह (जे० सी०-27364) — 30 मई, 1970 ।

नायब रिसालदार आत्मा सिंह (जे० सी०-28578) — 30 जून, 1970 ।

नायब रिसालदार अमर सिंह (जे० सी० 26488) : नायब रिसालदार छिटा सिंह (जे० सी०-31518) — 20 जुलाई, 1970 ।

नायब रिसालदार मोहम्मद आयुब खान, बीर चक्र (जे० सी०-32607) — 22 जुलाई, 1970 ।

नायब रिसालदार मान सिंह (जे० सी० 32689) — 4 सितम्बर, 1970 ।

नायब रिसालदार बसन्त राव सावंत (जे० सी०-33099) — 5 अक्टूबर, 1970 ।

अवर सचिव  
होणताक सिंह,

सं० 29, दिनांक 10 दिसम्बर, 1970 :— राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदाव्रतियां करते हैं :—

**नियमित सेना****बिजली और मशीनी इंजीनियर फोर****सूबेदार मेजर आममिन्द आर्ट और आरटीजन****(इसिजिबिल केटेगरीज) के रैंक में**

सूबेदार निरमल सिंह (जे० सी०-59340) : सूबेदार मेहर चन्द (जे० सी०-59331) : सूबेदार गनपत राय हसीजा (जे० सी०-56016) : सूबेदार राम सरूप (जे० सी०-58598) : सूबेदार जसवन्त सिंह धिन्द्रा (जे० सी०-57848) :

सूबेदार द्वारका नाथ (जे० सी०-59345) : सूबेदार हरचरन सिंह (जे० सी०-58595) : सूबेदार देवराज सिंह (जे० सी०-59359) : सूबेदार राम नारायण (जे० सी०-58596) : सूबेदार जी० वी० अभ्यंकर (जे० सी०-57830) : सूबेदार आ० ई० पी० डेविड (जे० सी०-47653) : सूबेदार के० पी० चक्कोर (जे० सी०-3508) : सूबेदार देवी दास (जे० सी०-47585) : सूबेदार जसवन्त सिंह (जे० सी०-59329) - 1 अगस्त, 1970।

#### सूबेदार भंडार के रैंक में

नायब सूबेदार बलदेव राज बाणी (जे० सी०-26440) : नायब सूबेदार जेन सिंह (जे० सी० 27022) : नायब सूबेदार रामेन्द्रा कुमार नाथ (जे० सी०-27110) : नायब सूबेदार हकम सिंह (जे० सी०-27024) : नायब सूबेदार बालकृष्ण वैद (जे० सी०-27287) : नायब सूबेदार विश्वानाथ शर्मा (जे० सी०-27245) : नायब सूबेदार नाबल किशोर (जे० सी०-27288) : नायब सूबेदार सन्तोष कुमार बागची (जे० सी०-27246) नायब सूबेदार उमा नन्दा चौधरी (जे० सी०-27248) : नायब सूबेदार पी० टी० बेबी (जे० सी०-27249) : नायब सूबेदार किदार नाथ (जे० सी० 32716) : नायब सूबेदार के० रामदेवन पिल्ले (जे० सी०-32654) : नायब सूबेदार एन० सहाराथन नायर (जे० सी० 32717) : नायब सूबेदार मुर्ली मोहन सेठ (जे० सी०-32718) : नायब सूबेदार ब्रम्हानन्द उपाध्या (जे० सी०-32673) -1 अगस्त, 1970।

#### सूबेदार (डाइविग विंग) के रैंक में

नायब सूबेदार दिवान सिंह (जे० सी०-37195) : नायब सूबेदार रामदास शुक्ला (जे० सी०-36368) : नायब सूबेदार द्वारका नाथ (जे० सी०-35460) : नायब सूबेदार टी० अचेष्ट्या (जे० सी०-36373) : नायब सूबेदार ललता प्रसाद मिश्रा (जे० सी०-36372) : नायब सूबेदार गमीर सिंह (जे० सी०-37179) : नायब सूबेदार गनपत सिंह रावत (जे० सी० 37181) नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-37182) : नायब सूबेदार हन्स राज (जे० सी०-37467) : नायब सूबेदार मुन्नि लाल सिंह (जे० सी०-37184) : नायब सूबेदार तीर्थ नाथ (जे० सी०-37185) : नायब सूबेदार जय करन सिंह (जे० सी०-37186) : नायब सूबेदार निम्ब सिंह (जे० सी०-37189) : नायब सूबेदार शंकर सिंह (जे० सी०-37190) : नायब सूबेदार एस० गोपाल (जे० सी०-35456) : नायब सूबेदार एम० ए० थोमस (जे० सी०-37194) : नायब सूबेदार भीमला गोंडाली (जे० सी०-37466) : नायब सूबेदार मधू (जे० सी०-37196) : नायब सूबेदार आत्मा सिंह (जे० सी०-38813) : नायब सूबेदार वेग राज (जे० सी०-38812) : नायब सूबेदार पदम चन्द (जे० सी०-38815) : नायब सूबेदार एम० एस० चेल्लापन पिल्ले (जे० सी०-39736) : नायब सूबेदार गोपी (जे० सी०-38816) : नायब सूबेदार ए० अन्थोनी (जे० सी०-37469) : नायब सूबेदार बी० सिंगारा बेलू (जे० सी०-37471) : नायब सूबेदार दो० एन० राजापन पिल्ले (जे० सी०-37478) : नायब सूबेदार वैकटेसन (जे० सी०-39737) : नायब सूबेदार मन्दड़ी जेकर (जे०

सी०-37473) : नायब सूबेदार कुनवर प्रताप सिंह पुनवर (जे० सी०-39738) : नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-37474) : नायब सूबेदार नाहर सिंह (जे० सी०-37475) : नायब सूबेदार लक्ष्मनन (जे० सी०-37476) नायब सूबेदार माधवन नायर (जे० सी०-37477) : नायब सूबेदार चिमन सिंह रावत (जे० सी०-37483) : नायब सूबेदार एन० रामन (जे० सी०-38818) - 1 अगस्त, 1970।

#### सूबेदार आरटीजन (नॉन इलिजिबिल कैटेगरीज)

##### के रैंक में

नायब सूबेदार गजराज सिंह (जे० सी०-18651) : नायब सूबेदार एम० कृष्णन नायर (जे० सी०-35463) : नायब सूबेदार बी० आर० नासिम्हा मूर्थी (जे० सी०-35465) : नायब सूबेदार जगन्नाथ राओ जोरानकर (जे० सी०-37459) : नायब सूबेदार जयकुट्टन (जे० सी०-37460) : नायब सूबेदार सी० वी० रामन नायर (जे० सी०-37461) : नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जे० सी०-37462) : नायब सूबेदार के० पी० चीना पलानी (जे० सी०-39714) : नायब सूबेदार प्रकाश सिंह (जे० सी०-39715) : नायब सूबेदार दोध नाथ दूबे (जे० सी०-39716) : नायब सूबेदार हरसुख राम (जे० सी०-42196) : नायब सूबेदार करनूरी लाल (जे० सी० 39720) : नायब सूबेदार मुभिन चन्द्रा नाथ (जे० सी०-39725) : नायब सूबेदार पेरीया नायागम (जे० सी०-39723) : नायब सूबेदार सुब्बैया (जे० सी०-39727) : नायब सूबेदार एम० एम० आरुमुगम (जे० सी०-39726) : नायब सूबेदार सदानन्द निवारी (जे० सी०-38776) : नायब सूबेदार भरमार स्वेन (जे० सी०-38775) : नायब सूबेदार वी० बालाकृष्णा गैगन (जे० सी०-40114) - 1 अगस्त, 1970।

#### सूबेदार मेजर डाइविग विंग के रैंक में

सूबेदार वसन्त शिधे (जे० सी०-3433) - 1 जुलाई, 1970।

#### सूबेदार आर्मेन्ट आर्ट और आरटीजन

##### (इलिजिबिल कैटेगरीज)

##### के रैंक में

नायब सूबेदार बी० राजा राम (जे० सी०-13376) : नायब सूबेदार रविन्द्रा मोहन बोस (जे० सी०-13818) : नायब सूबेदार राम प्रकाश (जे० सी०-14779) : नायब सूबेदार जगदीश्वर दत्त (जे० सी०-14782) : नायब सूबेदार समभूरन सिंह (जे० सी०-16255) : नायब सूबेदार भानु रसीम दास गुप्ता (जे० सी०-16260) : नायब सूबेदार राम किशन (जे० सी०-17742) : नायब सूबेदार डेविड (जे० सी०-18653) : नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जे० सी०-18656) : नायब सूबेदार मनशा सिंह (जे० सी०-18661) : नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-18673) : नायब सूबेदार चन्दु लाल (जे० सी०-19526) : नायब सूबेदार जय चन्द (जे० सी०-19058) : नायब सूबेदार करनैल सिंह (जे० सी०-19386) : नायब सूबेदार माधव राज (जे० सी०-19543) :

नायब सूबेदार रामचन्द्रा विशनु सुतार (जे० सी०-19385) :  
 सूबेदार हरि हर सिंह (जे० सी०-19111) : नायब सूबे-  
 दार सनतन डि सूजा (जे० सी०-21378) : नायब सूबेदार  
 प्रीतम सिंह (जे० सी०-22825) : नायब सूबेदार टी० चन्द्रा  
 सेखरन (जे० सी०-24468) : नायब सूबेदार जयु नन्दन  
 सिंह (जे० सी०-24467) : नायब सूबेदार पद्मा नाभन  
 (जे० सी०-26979) : नायब सूबेदार मदन मोहन सिल (जे०  
 सी०-27933) : नायब सूबेदार प्रान दास (जे० सी०-31117) :  
 नायब सूबेदार श्री राम (जे० सी०-28354) : नायब सूबेदार  
 सुन्दर दास (जे० सी०-28366) : नायब सूबेदार सुधीर चन्द्रा  
 पटनायक (जे० सी०-28880) : नायब सूबेदार गोविन्दा  
 कुरूप (जे० सी०-28700) : नायब सूबेदार कृशना कुमार  
 दुबे (जे० सी०-28379) : नायब सूबेदार अस्वरज सिंह (जे०  
 सी०-28887) : नायब सूबेदार सुदर्शन कुमार शर्मा (जे०  
 सी०-28864) : नायब सूबेदार एम० जगन्नाथ (जे० सी०-  
 31427) : नायब सूबेदार निशाल मनि (जे० सी०-32671) :  
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-32931) : नायब सूबे-  
 दार गुरचरन सिंह (जे० सी०-33865) : नायब सूबेदार  
 हीरा सिंह (जे० सी०-33858) : नायब सूबेदार कुंवर सिंह  
 (जे० सी०-33894)— 1 अगस्त, 1970 ।

#### सूबेदार क्लर्क (सामान्य श्रेणी) के रैंक में

नायब सूबेदार वी० एम० जोर्ज (जे० सी०-18640) :  
 1 अगस्त, 1970 ।

#### सूबेदार आरटीजन (नॉन-इल्लिजिबिल केटेगरीज) के रैंक में

नायब सूबेदार बी० जे० मनदत्ता (जे० सी०-17820)—  
 नायब सूबेदार एम० पुशपा राजन (जे० सी०-18693) : नायब  
 सूबेदार पी० एस० थारमुगम (जे० सी०-19070) —  
 1 अगस्त, 1970 ।

#### सूबेदार (ब्राह्मिग बिग) के रैंक में

नायब सूबेदार हरि शंकर (जे० सी०-20404) : नायब  
 सूबेदार सुरग्यानि (जे० सी०-23751) : नायब सूबेदार गंगा  
 सिंह (जे० सी०-35445) नायब सूबेदार चण्ण्डा कन्वैमन  
 (जे० सी०-35457)—1 अगस्त, 1970 ।

#### सूबेदार भंडार के रैंक में

नायब सूबेदार वाबू धन थापा (जे० सी०-22874) :  
 नायब सूबेदार उमराव सिंह (जे० सी०-26460)— 1 अगस्त,  
 1970 ।

#### सूबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार किशन सिंह (जे० सी०-19551) : नायब  
 सूबेदार अमर नाथ चोपरा (जे० सी०-31157)— 1 अगस्त,  
 1970 ।

#### सूबेदार आर्मिमेंट आर्ट और आरटीजन

(इल्लिजिबिल केटेगरीज)

के रैंक में

नायब सूबेदार भाग सिंह (जे० सी०-32972) : नायब  
 सूबेदार नाकुल सिंह (जे० सी०-32971) : नायब सूबेदार  
 सुरजन सिंह (जे० सी०-32932) : नायब सूबेदार लक्ष्मी  
 नारायण गंगोली (जे० सी०-32979) : नायब सूबेदार शंकर  
 सिंह (जे० सी०-32973) : नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र  
 चड्डा (जे० सी०-32974) : नायब सूबेदार सरदूल सिंह (जे०  
 सी०-32933) : नायब सूबेदार आई० डी० अरुल दास (जे०  
 सी०-32981) : नायब सूबेदार इलम सिंह (जे० सी०-32982)  
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-32983) : नायब सूबे-  
 दार गुरमीत सिंह (जे० सी०-32984) : नायब सूबेदार बचन  
 सिंह (जे० सी०-32934) : नायब सूबेदार किदार नाथ (जे०  
 सी०-32935) : नायब सूबेदार रतन चन्द्र (जे० सी०-32980) :  
 नायब सूबेदार तलोक सिंह (जे० सी०-32985) : नायब सूबे-  
 दार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-32986) : नायब सूबेदार वासे-  
 देव खण्ड पुरी (जे० सी०-32975) : नायब सूबेदार नरिन्दर  
 सिंह (जे० सी०-32976) : नायब सूबेदार जयकरन सिंह  
 (जे० सी०-32987) : नायब सूबेदार सरवजीत सिंह (जे०  
 सी०-32660) नायब सूबेदार मधुकर नायक (जे० सी०-33855) :  
 नायब सूबेदार एन० कला बिरत (जे० सी०-33839) : नायब  
 सूबेदार के० सुभ्राया (जे० सी०-33874) : नायब सूबेदार  
 मोहन लाल (जे० सी०-33841) : नायब सूबेदार जी० वैकटा  
 स्वामी (जे० सी०-33842) : नायब सूबेदार कृष्ण लाल दत्ता  
 (जे० सी०-33843) : नायब सूबेदार प्रान नाथ शर्मा (जे०  
 सी०-33844) : नायब सूबेदार गनपत राय (जे० सी०-33845) :  
 नायब सूबेदार भीम सैन (जे० सी०-34434) : नायब सूबे-  
 दार भारत भूषण (जे० सी०-33847) : नायब सूबेदार  
 तिलक राज (जे० सी०-33849) : नायब सूबेदार बुधि  
 सिंह (जे० सी०-34435) : नायब सूबेदार गुलाब सिंह रावत  
 (जे० सी०-33850) : नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे०-  
 सी०-33851) नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जे० सी०-33852) :  
 नायब सूबेदार दिनेश चन्द्रा सरकार (जे० सी०-31126) :  
 नायब सूबेदार रामजी दास (जे० सी०-33853) : नायब  
 सूबेदार राजिन्दर सिंह (जे० सी०-33854) : नायब  
 सूबेदार कैथ्यरन रापाय पौउलस (जे० सी०-33859) : नायब  
 सूबेदार एन० कुटंटी कृष्णन नायर (जे० सी०-33862) :  
 नायब सूबेदार सी० एस० जयवेलू (जे० सी०-33864) : नायब  
 सूबेदार हरबन्स लाल (जे० सी०-33866) : नायब सूबेदार  
 अमर नाथ (जे० सी०-33868) : नायब सूबेदार हरदेव सिंह  
 (जे० सी०-33870) : नायब सूबेदार गनपथि (जे० सी०-  
 33871) : नायब सूबेदार हेम राज (जे० सी०-33872) :  
 नायब सूबेदार मुलखान सिंह (जे० सी०-33873) : नायब  
 सूबेदार प्रीतम लाल (जे० सी०-33880) : नायब सूबेदार  
 टान द्रओ रासकर (जे० सी०-33892) : नायब सूबेदार जसमेर

सिंह (जे० सी०-35422) : नायब सूबेदार वी० के० बाला  
सुब्रामनियम (जे० सी०-33923) : नायब सूबेदार जी० वी०  
राजो चौदरी (जे० सी०-33924) : नायब सूबेदार ठाकुर  
सिंह आस्थाल (जे० सी०-33927) : नायब सूबेदार मन्था सिंह  
(जे० सी०-33930) : नायब सूबेदार बूटा राम (जे० सी०-  
33931) : नायब सूबेदार रघुनाथ सिंह (जे० सी०-33933) :  
नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी०-33899) : नायब सूबेदार  
बुध देव (जे० सी०-33900) : नायब सूबेदार बन्सी लाल (जे०  
सी०-33901) : नायब सूबेदार कैलाश चन्दर (जे० सी०-  
33903) : नायब सूबेदार मदन मोहन सिंह (जे० सी०-  
33905) : नायब सूबेदार राम प्यारा (जे० सी०-33904) :  
नायब सूबेदार सुन्दर डोगरा (जे० सी०-28709) : नायब  
सूबेदार श्री राम बोरा (जे० सी०-33895) : नायब सूबेदार  
वासन्त माटरल (जे० सी०-33906) : नायब सूबेदार गिलखा  
सिंह (जे० सी०-34436) : नायब सूबेदार रखा हरी मन्था  
(जे० सी०-33908) : नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जे० सी०-  
34437) : नायब सूबेदार राधे श्याम (जे० सी०-35420) :  
नायब सूबेदार राम किशन (जे० सी०-33882) : नायब सूबेदार  
बलवन्त सिंह (जे० सी०-33884) : नायब सूबेदार सुष्वा  
सिंह (जे० सी०-33885)—1 अगस्त, 1970 ।

नायब सूबेदार कार्तिक चन्द्रा राह (जे० सी०-33886) :  
नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी०-33887) : नायब सूबेदार  
गुरबक्स सिंह (जे० सी०-33888) : नायब सूबेदार द्वारका  
प्रसाद गुप्ता (जे० सी०-33889) : नायब सूबेदार अचछर सिंह  
(जे० सी०-33890) : नायब सूबेदार सूरज मल (जे० सी०-  
33918) : नायब सूबेदार राम प्रकाश (जे० सी०-33919) :  
नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जे० सी०-33920) : नायब  
सूबेदार हेमराज सिंह (जे० सी०-33896) : नायब सूबेदार  
साधू सिंह (जे० सी०-33897) : नायब सूबेदार  
केवल सिंह (जे० सी०-33934) : नायब सूबेदार ख्याली राम  
पाण्डे (जे० सी०-33935) : नायब सूबेदार ए० टी० थोमस  
(जे० सी०-33936) : नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह सैनी  
(जे० सी०-33937) : नायब सूबेदार मदन सिंह (जे० सी०-  
33938)—1 अगस्त, 1970 ।

नायब सूबेदार शिव नारायण (जे० सी०-35421) ; नायब  
सूबेदार कन्दरपा चक्रवर्ती (जे० सी०-33909) ; नायब सूबेदार  
पियागा राजन (जे० सी०-33910) ; नायब सूबेदार हवेली  
राम (जे० सी०-33912) ; नायब सूबेदार किशोरी लाल (जे०  
सी०-36261) ; नायब सूबेदार मलकीयत सिंह (जे० सी०-  
33913) ; नायब सूबेदार धन श्याम दास (जे० सी०-33914) ;  
नायब सूबेदार चन्द परकाश (जे० सी०-33915) ; नायब सूबेदार  
बन्सी लाल यादवा (जे० सी०-33916) ; नायब सूबेदार आंकार  
चन्द (जे० सी०-33917) ; नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे०  
सी०-35424) ; नायब सूबेदार कांशी राम (जे० सी०-37080) ;  
नायब सूबेदार प्रोमोथ सिंह (जे० सी०-36346) ; नायब सूबेदार  
पी० बेलायुधा मैनन (जे० सी०-36310) ; नायब सूबेदार राम  
सिंह (जे० सी०-37081) ; नायब सूबेदार मदन गोपाल मंहता

(जे० सी०-36298) ; नायब सूबेदार राम दास (जे० सी०-  
36300) ; नायब सूबेदार सुशील कुमार बोस (जे० सी०-  
36447) ; नायब सूबेदार टी० पी० केलुश्री मैनन (जे० सी०-  
36301) ; नायब सूबेदार कस्तूरी लाल शर्मा (जे० सी०-36302) ;  
नायब सूबेदार पी० सी० पूरना जन्द्रा रेड्डी (जे० सी०-36303) ;  
नायब सूबेदार कापल दूआ (जे० सी०-36305) ;  
नायब सूबेदार कमल देव (जे० सी०-36306) ;  
नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०-36307) ; नायब सूबेदार  
राम कुमार (जे० सी०-36308) ; नायब सूबेदार के० राधा  
कृष्णन (जे० सी०-36309) ; नायब सूबेदार भावी चन्द (जे०  
सी०-36263) ; नायब सूबेदार कुन्दन लाल (जे० सी०-36262) ;  
नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जे० सी०-36265) ; नायब सूबेदार  
गज्जान सिंह (जे० सी०-36266) ; नायब सूबेदार हीरा सिंह  
(जे० सी०-36319) ; नायब सूबेदार भगवन्त सिंह (जे० सी०-  
36320) ; नायब सूबेदार प्यारा सिंह (जे० सी०-36267) ;  
नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जे० सी०-36268) ; नायब सूबेदार  
च्यथन स्वार्थ (जे० सी०-36321) ; नायब सूबेदार के० के०  
मालो मन्होत्रा (जे० सी०-36269) ; नायब सूबेदार मेजर सिंह  
(जे० सी०-36270) ; नायब सूबेदार होशियार सिंह (जे० सी०-  
36322)—1 अगस्त 1970 ।

#### सूबेदार आरमौरर के रैंक में

नायब सूबेदार टी० एल्० राफाइल (जे० सी०-33833) ;  
नायब सूबेदार सत्या नारायण सिंह (जे० सी०-19535) ; नायब  
सूबेदार मोती लाल (जे० सी०-33834) ; नायब सूबेदार गुरचरन  
सिंह (जे० सी०-33875) ; नायब सूबेदार लक्ष्मी चन्द (जे० सी०-  
33835) ; नायब सूबेदार बचन सिंह (जे० सी०-35428)—  
1 अगस्त 1970 ।

नायब सूबेदार गिरधारी नारायण सिंह (जे० सी०-35426) ;  
नायब सूबेदार चन्द्रा दीप गिरी (जे० सी०-35429) ; नायब सूबे-  
दार भगवान सिंह (जे० सी०-35427) ; नायब सूबेदार पी० सी०  
बालाचन्द्रन (जे० सी०-37167) ; नायब सूबेदार के० कृष्णन  
(जे० सी०-37168) ; नायब सूबेदार आर० पी० गोस्वामी  
(जे० सी०-37174) ; नायब सूबेदार मुनि लाल (जे० सी०-  
37169) ; नायब सूबेदार राज सिंह (जे० सी०-37170) ;  
नायब सूबेदार नारेन्दर सिंह (जे० सी०-37172)—1 अगस्त  
1970 ।

टी० जेकब, अधर सचिव

सं० 30, दिनांक 2 नवम्बर 1970—भारत सरकार, रक्षा  
मंत्रालय के पत्र सं० 17100/डी० जी० ए० एफ० एस०/डी० जी०-1  
(एक्स)/6910/v/डी (ग्रेड) दिनांक 31 दिसम्बर 1965 द्वारा  
यथापरिवर्तित थल सेना अनुदेश 208/59 के आधीन निम्नलिखित  
अफसर के, 4 मई 1970 से सैनिक डाक्टरों कोर में 5 वर्ष के लिए  
युगपत नियुक्त हो जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें सैनिक डाक्टरों  
कोर में परख पर 2लिफ्टि० के रैंक में अल्पकालीन कमीशन से  
मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

**नियमित सेना****अल्पकालीन कमीशन****लेफ्टि० के रैंक में (परख पर)**

नरेश चन्द्र मेहता, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-8373) ए० एम सी० ।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

सं० 31, दिनांक 14 दिसम्बर 1970—निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा से निवृत्त हुए :—

**नियमित सेना****(ए० ओ० सी०)**

श्री पिन्डी दास, अस्थायी आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन (भंडार), 10 अक्टूबर 1970 (पूर्वाह्न) ।

एस० के० काक, अवर सचिव

**सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा**

सं० 33, दिनांक 15 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति, सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा (श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2) नियम 1951 के,

नियम संख्या 12 ए(सी) (ii) के अंतर्गत, महाराष्ट्र सरकार कैम्प श्रेणी-2 अधिकारी, श्री ए० बी० वारेडकर को दिनांक 2 नवम्बर 1970 (पूर्वाह्न) से सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा श्रेणी 2 में स्थानान्तरण द्वारा, अल्पकालिक अस्थाई तौर पर, एक वर्ष के लिए, प्रतिनियुक्ति पर, सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

बी० ए० बालियापारमपिल, अवर सचिव

**(नौसेना विभाग)**

सं० 34, दिनांक 9 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग III के विनियम 19 66 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

**भारतीय नौसेना****स्थायी कमीशन****इंस्ट्रक्टर प्रांच**

अग्रवाल तनसुख राय

13 अप्रैल 70 से कार्य०

बहुल सुभाष चन्द्र

इंस्ट्रक्टर सब-लेफ्टि० परखाधीन

धर्मे बृजमोहन

के पद पर

रोबिन अलांशियस पाल आन्द्रदे

सिंह मलविन्दर

सं० 35, दिनांक 28 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

**भारतीय नौसेना****स्थायी काडर****मास्टर चीफ पेटो अफसर**

नौसेना अनुदेश 15/69 के अन्तर्गत नीचे खाना 5 में दी गई तारीख (तारीखों) से मास्टर चीफ पेटो अफसर द्वितीय श्रेणी के पद पर ।

क्रम सं०	नाम	दर्जा	सं०	तारीख
1	2	3	4	5
1.	पी० के० एस० पतिवकर	सी० पी० ओ० (टी० ए० एस० 1)	13399	1-1-70
2.	बी० नाथ	सी० पी० ओ० (क्यू० एम० 1)	22253	1-1-70
3.	वी० नायक	सी० पी० ओ० (जी० एल० 1)	26552	1-1-70
4.	पी० नारायण	सी० पी० ओ० (पी० आर० 1)	29063	1-1-70
5.	एस० सिंह	सी० पी० ओ० (जी० एल० 1)	30427	1-1-70
6.	पी० नारायण	सी० पी० ओ० (जी० एल० 1)	34357	1-1-70
7.	जी० राम	सी० पी० ओ० (जी० एल० 1)	36114	1-1-70
8.	एस० सिंह	सी० पी० ओ० (क्यू० आर० 1)	36403	1-1-70
9.	के० के० चक्रवर्ती	सी० पी० ओ० (क्यू० आर० 1)	40980	1-1-70
10.	एम० सिंह	सी० पी० ओ० (जी० एल० 1)	41694	1-1-70
11.	डी० सिंह	सी० पी० ओ० (जी० 1)	45026	1-1-70
12.	के० कुथप्पा	सी० वाई० एस०	39429	1-1-70
13.	सी० के० रीपरोदी	सी० पी० ओ० टैल	20443	1-1-70
14.	जी० सिंह	मैक० 3	44341	16-3-70
15.	वाई० आर० सी० दास	मैक० 3	48093	16-3-70

1	2	3	4	5
16.	एस० एस० यादव	ई० आर० ए० 3	49344	18-5-70
17.	एम० एस० रावत	ई० आर० ए० 3	49408	14-5-70
18.	ई० एम० आगा	कार्य० चीफ० मैक (अस्थायी)	41456	1-1-70
19.	सी० ए० नायर	मैक० 3	64413	27-4-70
20.	के० वी० वर्धीज	मैक० 3	64938	2-2-70
21.	एम० आर० शर्मा	सी० पी० ओ० एम० (ई०)	61867	1-1-70
22.	बी० सी० बिस्वास	सी० एच० एस० डब्ल्यू० ए०	50616	1-1-70
23.	एम० के० नायर	मैक० (आर०) 3	47290	1-1-70
24.	ए० एस० बहार	कार्य० सी० एच० ई० ए० आर०	47430	1-1-70
25.	के० देव	कार्य० सी० एच० ई० ए० आर०	50744	1-1-70
26.	एन० सी० जी० कुट्टि	सी० एच० ई० एल० पी०	48121	1-1-70
27.	टी० मैथ्यू	सी० पी० ओ० रायटर	41993	1-1-70
28.	जे० एस० मिश्र	एस० सी० पी० ओ०	62252	1-1-70
29.	टी० पी० जे० टामस	एस० सी० पी० ओ०	62339	1-1-70
30.	जे० बरुआ	सी० पी० ओ० कुक ओ०	17912	1-1-70
31.	जे० ई० के० मेनन	सी० पी० ओ० एम० ए०	35141	1-1-70
32.	आर० नम्बियार	सी० एच० ए० (ए० एच०)	61284	1-1-70
33.	ए० सिंह	सी० एच० ए० (ए० एच०)	60178	1-1-70
34.	आर० चन्द्र	सी० एच० ए० एम० (डब्ल्यू०) (अस्थायी)	45361	1-1-70
35.	एस० शर्मा	सी० पी० ओ० ए० एफ०	46107	1-1-70
36.	एस० सिंह	सी० पी० ओ० (जी० 1)	60713	1-1-70
37.	बी० लाल	सी० पी० ओ० (जी० एल० 1)	9121	1-1-70
38.	टी० वाल्कर	सी० पी० ओ० (जी० एल० 1)	15194	1-1-70
39.	एम० सिंह	सी० पी० ओ० (न्यू० आर० 1)	33311	1-1-70
40.	एस० सिंह	सी० पी० ओ० (न्यू० आर० 1)	35716	1-1-70
41.	बी० पायी	सी० पी० ओ० (जी० 1)	43288	15-12-68
42.	एच० सिंह	सी० पी० ओ० (जी० 1)	43564	1-1-70
43.	सी० जानसन	एम० ए० ए०	42171	1-1-70
44.	पी० के० आर० पिरले	सी० पी० ओ० टैल०	23079	1-1-70
45.	आर० चेत्री	कार्य० सी० एच० ई० आर० ए० (अस्थायी)	50618	1-1-70
46.	एम० के० कुस्टन	मैक० 3	64414	2-3-70
47.	आर० सी० सूद	एस० डब्ल्यू० ए० 3	50856	8-6-70
48.	के० एस० होति	सी० एच० ई० एल० पी०	48105	1-1-70
49.	टी० के० मूर्ति	कार्य० सी० एच० मैक० (पी०)	37149	1-1-70
50.	डी० एल० इस्टेव	कार्य० सी० एच० ई० एल० पी० (एम०)	50800	1-1-70
51.	ए० एम० राय	ई० ए० पी० (एम०) 3	50776	15-12-68
52.	एम० के० बणीर	ई० ए० पी० (एम०) 3	50836	25-5-70
53.	बी० शाह	ई० ए० पी० 3	50837	22-6-70
54.	आर० कुमार	सी० एच० ई० एल० आर०	65363	1-7-69
55.	ए० एस० के०साद	ए० ए० 3	50835	24-8-69
56.	जे० के० स्वामी	ए० एम० (डब्ल्यू०) 3	47094	8-6-70
57.	पी० एस० सूध	सी० एच० ई० एल० ए०	48195	31-3-70
58.	टी० पी० सी० नायर	सी० एच० ई० एल० ए० आर०	64525	1-1-70

**(नौसेना विभाग)**

सं० 36, दिनांक 9 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

श्री वी० जी० राय, स्थायी डी० एन० एस० ओ०, अस्थायी एन० एस० ओ० को उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त डायरेक्टर आफ स्टोर के वर्तमान कार्यों को करने के लिए कमोडोर सी० मेहता के स्थान पर नियुक्त किया गया जिन्हें 16 जुलाई 70 से 29 अगस्त 70 तक छुट्टी प्रदान की गई ।

श्री एन० एस० सहोता, स्थायी मुख्य ड्राफ्ट्समैन (विद्युत) को टेक्नीकल असिस्टेंट (डिजाइन/विद्युत) के वर्तमान कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने के लिए श्री जी० जी० अतीतकर टेक्नीकल असिस्टेंट (डिजाइन/विद्युत) के स्थान पर नियुक्त किया गया जिन्हें 25 मई 70 से 11 जुलाई 70 तक छुट्टी प्रदान की गई ।

श्री एम० पणिनकर, स्थायी एस० एच० एम०, स्थानापन्न सीनियर फोरमेन आफ स्टोर की स्थानापन्न सहायक नौसेना स्टोर अफसर के पद पर, श्री ए० जे० ट्रिनिडाड, सहायक नौसेना स्टोर अफसर के स्थान पर जिन्हें 4 मई 70 से 12 सितम्बर 70 तक छुट्टी प्रदान की गई ।

श्री एम० एम० कामत, स्थायी फोरमैन आफ स्टोर, अस्थायी सहायक नौसेना स्टोर अफसर को स्वतंत्र रूप से उप नौसेना स्टोर अफसर के पद के वर्तमान कार्यों के प्रभारी के पद पर श्री सी० एफ० केस्टलिनो, उप नौसेना स्टोर अफसर के स्थान पर जिन्हें 14 अप्रैल 70 से 28 मई 70 तक छुट्टी प्रदान की गई ।

श्री के० गोपालन, स्थायी फोरमेन आफ स्टोर, अस्थायी सीनियर फोरमेन आफ स्टोर की स्थानापन्न सहायक नौसेना स्टोर अफसर के पद पर, श्री एम० एम० कामत, सहायक नौसेना स्टोर अफसर के स्थान पर, जिन्हें 15 अप्रैल 70 से 28 मई 70 तक छुट्टी प्रदान की गई ।

श्री आर० गणेशन, स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक, अस्थायी अधीक्षक की स्थानापन्न सहायक आयुध पूर्ति अफसर के पद पर, श्री के० ए० करीम, सहायक आयुध पूर्ति अफसर के स्थान पर जिन्हें 4 मई 70 से 1 अगस्त 70 तक छुट्टी प्रदान की गई ।

वी० ए० बलियापरम्पिल, अवर सचिव

सं० 37, दिनांक 16 दिसम्बर —राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक के अन्तर्गत निम्नलिखित भारतीय नौसेना वालंटीयर रिजर्व अफसरों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से चौथायी रिजर्व कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं :—

**भारतीय नौसेना वालंटीयर रिजर्व**

**(स्थायी कमीशन)**

**एक्जीक्यूटिव ब्रांच**

सब लेफ्टि० के पद पर

रतन लाल कोल, 1 अप्रैल 1970 ।

कार्य० सब लेफ्टि० के पद पर

राजीव पीलो, 17 अप्रैल, 1970 ।

**इन्जीनियरी ब्रांच**

भूपिन्दर सिंह गिल, 1 अप्रैल 1969 ।

नवम्बर नाथ खोसला, 1 अप्रैल, 1970 ।

**इलेक्ट्रिकल ब्रांच**

मुभाष चन्द्र चौरसिया, 1 अप्रैल, 1970 ।

जवाहिर सिंह, अवर सचिव

सं० 38, दिनांक 13 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक के विनियम 145 के अन्तर्गत निम्नलिखित फ्लेग अफसर के कार्यकाल की रियर ऐडमिरल के मूल रैंक में बढ़ोत्तरी करते हैं :—

**(भारतीय नौसेना)**

**(स्थायी कमीशन)**

**इलेक्ट्रिकल ब्रांच**

रियर ऐडमिरल वी० आर० सिंह, 8 अगस्त 1971 से 7 अगस्त 1972 तक ।

एल० दयाल संयुक्त सचिव (नौ०)

सं० 39, दिनांक 11 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति संशोधित नौ० अनु० 5/एस० 58 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसर को दो वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करते हैं :—

**भारतीय नौसेना**

**एक्जीक्यूटिव ब्रांच**

कमाण्डर (समय मान) टी० दास गुप्त, 7 अप्रैल 1970 से, वेतन की वरिष्ठता सहित 7 अप्रैल 1944 ।

सं० 40, दिनांक 11 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति संशोधित नौ० अनु० 5/एस०/58 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसर को नीचे दी गई अवधि के लिए पुनः नियुक्त करते हैं :—

**भारतीय नौसेना**

**एक्जीक्यूटिव ब्रांच**

कमाण्डर (समय मान) सी० आर० राय, 16 अप्रैल 1970 से 2 वर्ष के लिए, वेतन के लिए वरिष्ठता 16 नवम्बर 43 से ।

सं० 41, दिनांक 14 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

**भारतीय नौसेना**

**स्थायी कमीशन**

**इलेक्ट्रिकल ब्रांच**

सब-लेफ्टि० की लेफ्टि० के पद पर

वी० ए० गोखले, 1 अगस्त 1968 ।

एम० गोपाल राव, 1 अक्टूबर 1968 ।

आर० भाटिया, 1 दिसम्बर 1968 ।

एस० पी० शाह, 1 अप्रैल 1969 से 1 फरवरी 1969 को नौसेना सहित (केवल पदोन्नति के लिए) एन० आई० 1969) 1961 ।



**भारतीय नौसेना**  
(स्थायी कमीशन)  
(परखाबधि पर)  
इलेक्ट्रिकल ब्रांच

कार्य० सब-लेफ्टि० की सब-लेफ्टि० के पद पर

एस० आर० चौधरी, एच० सी० गान्धी, बाई जनार्दन, ए० के० कालरा, सी० एम० मनी, के० आर० मेनन, एम० डी० मेनन, वी० श्रीगोपाल तथा पी० वेणुगोपालन, 5 अक्टूबर 1969 से, 15 जुलाई 1968 की वरिष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए) ।

जे० पी० गुप्त, 5 अक्टूबर 1969 से, 22 जुलाई 1968 की वरिष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए) आर० शाहदादपुरी 5 अक्टूबर 1969 से, 29 जुलाई 1968 की वरिष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए) ।

पी० जे० मैथ्यू 5 अक्टूबर 1969 से, 31 जुलाई-1968 की वरिष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए) ।

आर० पी० यू० नायर, 5 अक्टूबर 1969 से, 2 अगस्त की वरिष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए) ।

एम० नरेन्द्रनाथन, 5 अक्टूबर 1969, 5 अगस्त 68 की वरिष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए) ।

के० रामसुदीन, 5 अक्टूबर 1969 से, 5 अगस्त 1968 की वरिष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए) ।

बी० ब्रोस 5 अक्टूबर 1969 से, 6 अगस्त 1968 की वरिष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए) ।

एल० पिल्लिकुंजा, 5 अक्टूबर 1969 से, 11 अगस्त 1968 की वरिष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए) ।

नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक के विनियम 126 तथा रक्षा मंत्रालय के पत्र ओ० एफ० /3472/64/एन० एच० क्यू०/30/69/डी० (एन० II) दिनांक 11-4-1967 द्वारा संशोधित पत्र ओ० एफ०/3472/64/एन० एच० क्यू०/5364/डी० (एन० II) दिनांक 21-5-1966 के अन्तर्गत ।

सं० 42, दिनांक 11 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके अपने ही अनुरोध पर नौसेना सेवा से रिटायर होन की अनुमति देते हैं :—

**भारतीय नौसेना**  
स्थायी कमीशन  
एक्जीक्यूटिव ब्रांच

कमांडर एम० घोष, 4 जुलाई 1970 ।

लेफ्टि० (एस० डी० सी०) एफ० ए० राजरत्नम, 1 अगस्त 1970 ।

लेफ्टिनेन्ट (एस० डी० जी०) अली मुहम्मद, 7 अगस्त 1970 ।

2. अफसरों का सेवा निवृत्ति सूची में शामिल कर लिया गया ।

सं० 43, दिनांक 11 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को सेवानिवृत्त सूची में शामिल करते हैं :—

**(भारतीय नौसेना)**  
(स्थायी कमीशन)

सप्लाई एवं कार्यालय ब्रांच

लेफ्टिनेन्ट (एस० डी० सी० ए०) आर० एस० आन्द्रदे, 7 सितम्बर 1970 :

जवाहिर सिंह अवर सचिव

सं० 44 दिनांक 14 दिसम्बर 1970—निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा से निवृत्त हुए :—

श्री के० टी० जान, स्थायी सी० जी० ओ० / स्थानापन्न पदोन्नत सी० जी० ओ० 1 नवम्बर 1970 (पूर्वाह्न) ।

एस० के० काक अवर सचिव

सं० 45, दिनांक 28 नवम्बर 1970—

**भारतीय नौसेना**

**स्थायी काब्र**

**मास्टर चीफ़/पेट्री अफसर**

(I) भारत के राजपत्र सं० 7 तारीख 14 फरवरी 1970 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 446 तारीख 30 जनवरी 1970 में, जहां तक यह मास्टर चीफ़ पेट्री अफसर प्रथम श्रेणी की उन्नति से सम्बन्धित है, निम्नलिखित संशोधन किया जाए :—

पृष्ठ 246 पर खाना 3 के अन्तर्गत एन० बी० थापा, चीफ़ ई० आर० ए० के सामने 50629 के स्थान पर 50529 पढ़ें ।

(II) भारत के राजपत्र सं० 30 तारीख 25 जुलाई 1970 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1945 दिनांक 6 जुलाई 1970 में, जहां तक यह मास्टर चीफ़ पेट्री अफसर द्वितीय श्रेणी की उन्नति से सम्बन्धित है, निम्नलिखित संशोधन किया जाए :—

पृष्ठ 933 पर "दिनांक" के खाने के अन्तर्गत क्रम सं० 27 एम० एम० बदवाल मैक (पी०) (एम०) 3 सं० 64955 के सामने 4-1-1970 के स्थान पर 10-8-1969 पढ़ें ।

जवाहिरसिंह, अवर सचिव

सं० 46, दिनांक 16 दिसम्बर 1970

**वायुसेना मुख्यालय**

श्री पी० एन० कृष्णास्वामी, अधीक्षक, की बदली होने पर श्री हंस राज, स्थायी सहायक को राष्ट्रपति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में 9 नवम्बर, 1970 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं । वह दो वर्ष तक परखाधीन रहेंगे ।

सं० 47, दिनांक 10 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

#### वायु सेना मुख्यालय

(i) श्री जे० एम० गांधी के छुट्टी जाने पर श्री जे० सी० मरवाह, स्थायी सहायक को 1 जून, 1970 से 11 जुलाई, 1970 तक स्थानापन्न अधीक्षक के रूप में।

(ii) श्री बी० जी० शर्मा के छुट्टी जाने पर श्री एम० बी० लाल, स्थायी सहायक, को 21 अप्रैल, 1970 से 30 मई, 1970 तक स्थानापन्न अधीक्षक के रूप में।

(iii) श्री कृष्णकुमार के छुट्टी जाने पर श्री आर० के० सहगल, स्थायी सहायक, को 29 अगस्त, 1970 से 29 सितम्बर 1970 तक स्थानापन्न अधीक्षक के रूप में।

(iv) श्री एस० नाथ के छुट्टी जाने पर श्री आर० के० सहगल स्थायी सहायक, को 8 जुलाई, 1970 से 8 अगस्त, 1970 तक स्थानापन्न अधीक्षक के रूप में।

#### वायुसेना मुख्यालय

सं० 48, दिनांक 10 दिसम्बर 1970—58 वर्ष की आयु होने पर श्री गुरचरन सिंह, स्थायी अधीक्षक/स्थानापन्न सी० एस० ओ० की 10 अक्टूबर, 1970 से पेंशन स्थापना में बदली की जाती है।

सं० 49, दिनांक 16 दिसम्बर 1970—58 वर्ष की आयु होने पर श्री वी० के० दत्ता, स्थायी सहायक/स्थानापन्न अधीक्षक की 1 नवम्बर, 1970 से पेंशन स्थापना में बदली करते हैं।

आर० डी० जैन सहायक मुख्य, प्रशासन अफसर

सं० 50, दिनांक 27 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित को वा० से० अनु० 49/51 और 23/48 जो भारत सरकार के यथासंशोधित पत्र सं० वा० से० सु०/6765/42/पी० ओ० 2/58/14/डी० (ए० तारीख 28 अप्रैल, 1952 के साथ पठनीय है, तथा वा० से० अनु० 11/55 के अधीन स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं :—

#### भारतीय वायु सेना

##### जी० डी० (पी०) शाखा

(भूतपूर्व एन० डी० ए० फ्लाइट कैंडिडेट पाइलट अफसर के रूप में)

अजीत केशव आग्ने (12188), विरोजा शंकर सिंह देव (12189), राज कुमार (12190), सुधीर चन्द्र (12191), देवदास बनर्जी (12192), संकरेन्द्र नाथ घोष (12193) अरुण कुमार तिवारी (12194), तनजोर कृष्णामूर्थी रामाचन्द्रन (12195), एरकायबाल्ड डी० मेलो (12196), आकाश दीपक धर्मराज (12198), हरजीत सिंह सोहनी (12199), आंगसटाइन जान सिंह (12200), मनोबिन्दर शमशेर बहादुर सिंह जौहर (12201),

सुधीर अस्थाना (12202), मनोज कुमार (12203), मिलिन्द माधवराव बालिगा (12204), विजय भालचन्द्र धर्माधिकारी (12205), सतीश कुमार शोफत (12207), कृष्ण कुमार पन्ड्या (12208), कुलदीप सिंह सोहल (12209), यशवंत राव राने (12210), राजिन्दर सिंह (12211), दीपक रणजीतसिंह पाटनकर (12212), सरवजीत सिंह होधी (12215), अमरीतपाल सिंह सिधु (12217), हरमोहिन्दर सिंह (12219), विजय कुमार (12220), सतीश चन्द्र मेहता (12223), कैलाश चन्द्र अरोड़ा (12224), रघुबीर सिंह गिल (12226), सुभाष चन्द्र सिंह (12227), राजेन्द्र नाथ सेन गुप्ता (12228), जकरिया कुरुविल्ला (12230), वृत्तमणि श्रीनिवास आयंगर गोविन्दराजन (12232), यशोविजय परमार (12235), गोली महेन्द्र (12238), तथा अरुण मागो (12239) 20 दिसम्बर 1969।

जांजं कुरुविल्ला (12368), 2 मई, 1970।

(भूतपूर्व एन० सी० सी० फ्लाइट कैंडिडेट पाइलट अफसर के रूप में)

प्रकाश प्रल्हाद दानी (12214), अशोक विश्वनाथ भगवत (12218), चम्बा नारायण सिंह राणावत (12221) तथा उपेन्द्र शास्त्री (12233), 20 दिसम्बर 1969।

(भूतपूर्व वायुसेनिक पाइलट अफसर के रूप में)

प्रेम प्रकाश सिंह (12206), प्रगत सिंह (12234) तथा सम्बा सिव राव कावुरी (12236), 20 दिसम्बर 1969।

सं० 51, दिनांक 8 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित को वा० से० अनु० 5/एस०/63 के अधीन पाइलट अफसर के रैंक में अनन्तिम अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं :

#### भारतीय वायुसेना

##### टेक० (इलेक्ट) शाखा

सतीश चन्द्र छावड़ा (11524), 24-7-1967।

##### टेक० (सिग्न०) शाखा

आनन्द रघुनाथ राव जोशी (10825), 24 जनवरी 1967।

सं० 52 तारीख 5 दिसम्बर 1970। राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को विंग कमांडर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं :—

#### भारतीय वायुसेना

##### जी० डी० (पी०) ब्रांच

स्ववाइन लीडर (कार्यकारी विंग कमांडर जे० सी० अग्रवाल (4259), बी० के० धीमन (4332), जे० के० सेठ (4403), पी० के० डे० (4404), के० सी० शर्मा (4412), 1 अप्रैल, 1970।

एस० पी० राय, अवर सचिव

सं० 53, दिनांक 27 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को ग्रुप कैंडिडेट के कार्यकारी रैंक में पदोन्नत करते हैं :—

**इण्डियन एयर फोर्स**  
**जी०डी०(पाइलट) ब्रांच**

विंग कमाण्डर डी० ए० लाफॉनटेन (3844), 2 जनवरी, 1970।

कुलवन्त सिंह, उप-सचिव

सं० 54, दिनांक 5 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित फ्लाइट लेफ्टिनेन्टों को स्ववाइन लीडर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं :

**भारतीय वायु सेना**

**ए० एण्ड एस० डी० शाखा**

आर० ईस्वरन (5343), 13 अप्रैल 1970।

**एजुकेशन शाखा**

ए० एस० नाल्लामुथू (5335), 13 अप्रैल 1970।

**जी० डी० (नेवी) शाखा**

एस० सी० मेहरा (5715), 29 मई 1970।

सं० 55, दिनांक 27 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित फ्लाइट अफसरों को फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं :

**भारतीय वायु सेना**

**टेक० (सिग्न) शाखा**

आर० वेंकट राजू (6839), 9 नवम्बर 1967।

**ए० एण्ड एस० डी० शाखा**

फ्लाइट अफसर ए० के० एस० इन्दुरकर (7438), 22 जून 1969।

सं० 56, दिनांक 11 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को फ्लाइट अफसर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं :

**इण्डियन एयर फोर्स**

**टेक० (इलेक्ट०) ब्रांच**

पाइलट अफसर एस० के० मित्रा (10809), वी० एस० हत्तनगडी (10808), सत्य प्रकाश (10806), आई० एच० हजारीका (10811), एच० के० गुप्ता (10805), ए० के० मुखर्जी (10812) और एम० एल० आनन्द (10810), 1 दिसम्बर 1968। वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 1 जून 1968 से।

**टेक० (सिग्न०) ब्रांच**

पाइलट अफसर एच० एस० मैनी (10787), आर० पी० सिंह (10788), ए० के० जुत्पी (10784), राज गोपाल (10797), ए० भार्गवा (10785), वेद प्रकाश (10792), सी० पलानीवाल (10795) वी० आर० शर्मा (10799), एस० एन० परसनीस (10786), आर० के० सपरा (10789),

एन० कुमार (10794), और आई० आर० शर्मा (11740), 1 दिसम्बर, 1968, वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 1 जून 1968 से।

पाइलट अफसर पी० पेरियासामी (11074), वी० जे० सिमुकदम (11071), वी० के० खोसला (11077), एस० राजखोवा (11073), एच० के० लाल (10419), के० सी० भारद्वाज (11069), आर० के० राठौर (11068), टी० आर० दास (11070), डी० के० चन्दा (11072), ए० चैटर्जी (11078), ए० पी० ब्यूर (11075), एन वी० सिंह (11064), जसवन्त सिंह (11754), डी० एस० बेदी (11755), एस० जी० कामथ (11756), तथा विष्णु दास (11757), 1 मार्च, 1969।

वेतन तथा पदोन्नति के लिए वरिष्ठता, 31 अगस्त, 1968।

सं० 57, दिनांक 20 अक्टूबर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से फ्लाइट अफसर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं। 1 मार्च, 1969 से कमीशन की पिछली तारीख अर्थात्, 31 अगस्त, 1966 प्रदान किए जाने के फलस्वरूप उनकी फ्लाइट अफसर के रूप में वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 31 अगस्त, 1968 से गिनी जाएगी।

**इण्डियन एयर फोर्स**

**टेक० (सिग्न) ब्रांच**

पाइलट अफसर वी० एन० गुप्ता (10796), 2 जनवरी, 1969।

सं० 58, दिनांक 11 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के सामने दिखाई गई तारीख से फ्लाइट अफसर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं। 13 जनवरी, 1969 से उन्हें कमीशन की पिछली तारीख अर्थात् 13 जुलाई, 1966 प्रदान किये जाने के फलस्वरूप फ्लाइट अफसर के रूप में वेतन तथा पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता 13 जुलाई, 1968 से गिनी जाएगी।

**इण्डियन एयर फोर्स**

**टेक० (इलेक्ट०) ब्रांच**

पाइलट अफसर के० के० मित्तल (10801) तथा एस० कुमार (10800), 2 जनवरी, 1969।

सं० 59, दिनांक 11 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के सामने दिखाई गई तारीख से फ्लाइट अफसर के मूल रैंक में पदोन्नति करते हैं। 1 दिसम्बर, 1968 से उन्हें कमीशन की पिछली तारीख अर्थात् 1 जून, 1966 प्रदान किये जाने के फलस्वरूप फ्लाइट अफसर के रूप में उनकी वेतन तथा पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 1 जन 1968 से गिनी जायगी।

**इण्डियन एयर फोर्स**

**टेक० (इलेक्ट०) ब्रांच**

पाइलट अफसर एन० पी० पाटिल (9132), 18 जुलाई 1968।

**टैक्निक (सिग्नल) ब्रांच**

पाइलट अफसर बी० एम० कौशिक (10710), पाइलट अफसर के० के० ब्योत्रा (10698), 3 अक्टूबर 1968।

सं० 60, दिनांक 20 अक्टूबर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से फ्लाइट अफसर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं। 6 जून, 1970 से उन्हें कमीशन की पिछली तारीख अर्थात् 28 जनवरी, 1965 प्रदान किये जाने के फलस्वरूप, फ्लाइट अफसर के रूप में उनकी वेतन तथा पदोन्नति के लिए बरिष्ठता 28 जनवरी, 1967 से गिनी जाएगी।

**इंडियन एयर फोर्स****टैक्निक (सिग्नल) ब्रांच**

पाइलट अफसर जी० बैनर्जी (10766), 28 जनवरी 1969।

सं० 61, दिनांक 8 दिसम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को, उनके नामों के सामने दिखाई गई तारीख से, अपना अनन्तिम अल्पकालिक कमीशन छोड़ देने की अनुमति प्रदान करते हैं, तथा उसी तारीख से उन्हें अल्पकालिक कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं :—

**इंडियन एयर फोर्स****टैक्निक (इलेक्ट्रिक) ब्रांच**

सतीश चन्द्र छावड़ा (11524), 15 जुलाई 1968।

**टैक्निक/सिग्नल ब्रांच**

आनन्द रघुनाथ राव जोशी (10825), 20 जुलाई 1968।

सं० 62, दिनांक 28 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को अपना कमीशन त्याग देने की अनुमति देते हैं :—

**भारतीय वायु सेना****जी० डी० (सी०) शाखा**

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के० मोहन (6501), 2 अक्टूबर 1970।

सं० 63, दिनांक 3 दिसम्बर 1970—निम्नलिखित अफसर को जनरल कोर्ट मार्शल के दण्डादेश द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जाता है :—

**इंडियन एयर फोर्स****जी० डी० (पाइलट) शाखा**

फ्लाइट अफसर डी विस्वास (9842), 12 जून 1970।

सं० 64, दिनांक 28 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों का कार्यकाल समाप्त होने पर उनके नामों के सामने लिखी तारीखों से उन्हें सेवा मुक्त करते हैं :—

**सहायक वायु सेना****जी० डी० (पी०) शाखा**

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट वोदुर प्रभाकर रेड्डी (सहा० 30130), 30 अप्रैल 1970।

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रवीनारायण सिंह (सहा० 30156), 26 अगस्त 1970।

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शिरीष कुमार अम्बालाल पण्डया (सहा० 30161), 3 सितम्बर 1970।

**ए० एण्ड एस० डी० शाखा**

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अशोक वामनराव बन्देकर (सहा० 30166), फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रफेल बर्ताराम डोनल्ड (सहा० 30167), 24 सितम्बर 1970।

सं० 65, दिनांक 28 नवम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर का परखाधीन अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं :—

**इंडियन एयर फोर्स****टैक/सिग्नल ब्रांच**

पाइलट अफसर एस० के० बोस (11555), 16 जून, 1968।

एस० पी० राय, अवर सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**

New Delhi, 2nd January 1971

No. 1, dated 9th Dec. 1970.—The President is pleased to appoint Lt. Col. A. S. Bawa (IC 9684), on transfer from Army Headquarters, as Liaison Officer, Department of Defence Supplies, Ministry of Defence w.e.f. 6th Oct. 1970.

C. L. DHINGRA, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 2, dated 11th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following appointments :—

Office of the C.A.O.

Shri E. A. Lobo, perm. Civilian staff Officer to be Senior Civilian Staff Officer in an officiating capacity from 12th Oct. 1970 (FN) to 21st Nov. 1970 (AN), vice Shri D. J. Barat, on leave.

D. J. BARAT, Asstt. C.A.O.

Office of the C.A.O.

No. 3, dated 7th Dec. 1970.—The President is pleased to appoint Shri Mittar Sain Jain, permanent Assistant/officiating Superintendent (Class II—Non-gazetted), Air HQ, to the Grade of Superintendent (Class II—Gazetted), in an officiating capacity, until further orders, in the Armed Forces Headquarters Civil Services at its initial constitution, 1st Mar. 1968.

R. D. JAIN, Asstt. C.A.O.

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 4, dated 5th Dec. 1970.—The President is pleased to appoint Shri M. P. Jain, Perm. Dy. Planning Officer (Contracts) as Legal Adviser, in the Department of Defence Production w.e.f. 25th Nov. 1970 on an *ad hoc* basis, for a period of one year, or till the post is filled in accordance within the recruitment rules, whichever is earlier.

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

## DEFENCE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 5, dated 7th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following promotions:—

*Defence Science Service*

Shri T. S. KRISHNAN, pmt. Senior Scientific Assistant, Defence Electronics Research Laboratory, Hyderabad, to be offg. Junior Scientific Officer in the same Establishment—1st Sep. 1970 (FN).

Shri K. NAGARAJAN, Temp. Junior Scientific Officer, Standardisation Cell, Kanpur, to be Offg. Senior Scientific Officer, Gde. II, in Textiles and Stores Research & Development Establishment, Kanpur—12th Sep. 1970 (FN).

*Defence Science Service*

No. 6, dated 7th Dec. 1970.—Consequent on acceptance of his resignation, Shri VIRENDRA KUMAR LABROO, Defence Science Laboratory, Delhi, relinquished charge of the post of Junior Scientific Officer—2nd Jan. 1970 (AN).

B. S. KAPOOR, Dy. Dir.

## (DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 7, dated 16th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following promotion:—

*Defence Science Service*

Shri Ayyaswamy Iyer RAMAMURTHY, offg. Foreman (permt. Asstt. Foreman), Chief Inspectorate of Electronics, Bangalore, to be offg. Junior Scientific Officer in the same establishment, 17th May 1969 (FN).

S. S. GUPTA, Dy. Dir. (Pers)

## (DYE. GENERAL NATIONAL CADET CORPS)

No. 8, dated 11th Dec. 1970.—The President is pleased to appoint Kumari S. J. Das Gupta, Pt. Lady Staff Officer Gde. II/offg. Lady Staff Officer Grade 1 DGNCC, as Lady Staff Officer Grade I, DGNCC, in a substantive capacity w.e.f. 1-4-1969.

D. J. BARAT, Asstt. C.A.O.

## NATIONAL CADET CORPS

No. 9, dated 15th Dec. 1970.—The President is pleased to grant commission to the following:—

*Girls Division (Senior Wing)*

To be 2/Lt.

*Punjab*

Miss BALBIR KAUR (NCC/GD/7114) and Miss RAJBANS KAUR MANN (NCC/GD/7117), 30th Jun. 1969.

*Assam*

Miss BITHIKA BASU (NCC/GD/7329), 30th Jun. 1969.

*Kerala*

Mrs. BEATRIX ALEXIS (NCC/GD/7826), 9th Jul. 1969.

*Tamil Nadu*

Miss D. SANTHAMANI (NCC/GD/5432), Miss K. S. SAVITHRI (NCC/GD/5433), Miss K. A. GNANAMANI (NCC/GD/5434) and Miss SEENIAMMAL (NCC/GD/5435), 5th July 1970.

*Madhya Pradesh*

Miss MOHINI GILL (NCC/GD/5730) and Mrs. SANTOSH LAL (NCC/GD/5731), 5th July 1970.

*Uttar Pradesh*

Miss CHANDRA SARKAR (NCC/GD/6664), Miss KANCHAN MEHROTRA (NCC/GD/6665), Mrs. SUBHAS KATYAL (NCC/GD/6666), Mrs. NIRMALA SHARMA

(NCC/GD/6667), Miss JAMILA KABIR (NCC/GD/6668), Miss NASIM BANO SIDDIQUI (NCC/GD/6669), Miss UMA SHARMA (NCC/GD/6670), Miss SUNITI MUKHERJI (NCC/GD/6671), Miss SAVITRI SINGH (NCC/GD/6672), Miss SAROJ VOHRA (NCC/GD/6673), Mrs. DAYA GUPTA (NCC/GD/6674) and Miss PADMA G. SHAHANI (NCC/GD/6675), 5th July 1970.

*Delhi*

Miss PUSHPA DEVI CHHABRA (NCC/GD/6816), 5th July 1970.

*Punjab*

Miss NARINDER KAUR (NCC/GD/7117) and Miss MOHINDER KAUR (NCC/GD/7118), 5th July 1970.

*Manipur*

Miss JYOTSNA LAHIRI (NCC/GD/7331), 5th July 1970.

*Assam*

Miss RENUKA DAS (NCC/GD/7332), 5th July 1970.

*Mysore*

Miss GEETA VYAS TANTRI (NCC/GD/7526), 5th July 1970.

*Andhra Pradesh*

Miss PULLARANI SARALA DEVI (NCC/GD/8056), Miss V. REBACCA (NCC/GD/8058), 5th July 1970.

*Gujarat*

Miss KAMALA C. PATEL (NCC/GD/8757), Miss NIXA HIRALAL DESAI (NCC/GD/8758), Miss PATWARI DIVYAPRABHA CHUNILAL (NCC/GD/8759), Miss PUSHPA BHATT (NCC/GD/8760) and Miss GANDHI FRENY MANEKSHA (NCC/GD/8761), 5th July 1970.

*Jammu and Kashmir*

Miss GEETA KUMARI (NCC/GD/8906), 5th July 1970.

No. 10, dated 3rd Dec. 1970.—The President is pleased to promote the following:—

*Girls Division (Senior Wing)*

2/Lt. to be Lt.

*Goa*

Miss MANGALA KENI (NCC/GD/5053), 16th July 1970.

Lt. to be Capt.

*Tamil Nadu*

Miss VISALAKSHI EKAMBARAM (NCC/GD/5427), 6th June 1970.

*Uttar Pradesh*

Mrs. RITA DEAN (Nee RITA ROZARIO) (NCC/GD/6519), Miss LEELA PAUL (NCC/GD/6520), Mrs. VIJAY LAKSHMI PRADHAN (NCC/GD/6524) and Mrs. SOM LATA GUPTA (NCC/GD/6525), 5th Oct. 1970.

2/Lt. to be Lt.

Miss SAVITRI DEVI (NCC/GD/6623), Miss KAMAL KUMARI KAPOOR (NCC/GD/6630), Miss ZAHIDA AHMAD (NCC/GD/6621), Miss ASHA DEVI (NCC/GD/6626), Miss SUSHILA NANDA (NCC/GD/6633), Mrs. VEENA SARAN (Nee VEENA DEVI JAIN) (NCC/GD/6634), Miss VEENA (NCC/GD/6627), Mrs. VIMLESH PRABHA SAKHUIA (NCC/GD/6628), Mrs. NIRMALA DIXIT (NCC/GD/6631) and Miss KUSUM AGARWAL (NCC/GD/6636), 16th July 1970.

Mrs. G. N. BROWN (NCC/GD/6608), 17th July 1969.

Capt. to be Major

Mrs. KAMALA SRIVASTAVA (NCC/GD/6502), 24th Jul. 1970.

*Captain to be Major*  
*Chandigarh Administration*

Miss UMA RATRA (NCC/GD/7002), 24th July 1970.

*Lt. to be Capt.*  
*Punjab*

Mrs. SATWANT KAUR (NCC/GD/7013), 28th June 1969.

*2/Lt. to be Lt.*

Miss VIDYA MANN (NCC/GD/7095), 16th July 1970.  
Miss SATWINDER H. SINGH (NCC/GD/7099), 6th April 1970.

*Haryana*

Mrs. RAJ KUMARI (NCC/GD/7088) and Miss PUSHPA KUMARI JAIN (NCC/GD/7096), 16th July 1970.

*Captain to be Major*  
*Mysore*

Miss T. K. NAGAMBAL (NCC/GD/7500), 18th Aug. 1970.

*2/Lt. to be Lt.*  
*Andhra Pradesh*

Miss K. VIJAYAKUMARI (NCC/GD/8047), Miss SAROJINI CHARLES (NCC/GD/8048), Mrs. PREM PYARI (NCC/GD/8049), Miss P. V. VASANTHA KUMARI (NCC/GD/8051), 16th July 1970.

*Rajasthan*

Miss MANJULA JINDAL (NCC/GD/8517), 17th July 1969.

*Gujarat*

Miss SUDHA N. MEHTA (NCC/GD/8746), 6th Oct. 1970.

Miss N. K. TRIVEDI (NCC/GD/8744), 16th July 1970.

No. 11, dated 30th Nov. 1970.—The President is pleased to accept the resignation of the following officers from the National Cadet Corps w.e.f. 18th Nov. 1970. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC :—

*Junior Division (Army Wing)*  
*Maharashtra*

S/O A. G. Awasthi (NCCJ/81112), (1st Apr. 1970 to 17th Nov. 1970).

*Bihar*

T/O Rajendra Prasad Shahi (NCCJ/1541), (26th Nov. 1969 to 17th Nov. 1970).

*Punjab*

F/O Bishan Dass Saini (NCCJ/7480), (19th May, 1970 to 17th Nov. 1970).

*Assam*

F/O Malsawma (NCCJ/30), 25th Mar. 1966 to 17th Nov. 1970).

S/O K. R. Borah (NCCJ/166), (5th Nov. 1969 to 17th Nov. 1970).

*Rajasthan*

S/O Naval Singh Nirman (NCCJ/31293), (31st Mar. 1970 to 17th Nov. 1970).

*Junior Division (Naval Wing)*

*Kerala*

S/O S. A. James (NCCJN/25223), (1st July, 1970 to 17th Nov. 1970).

*Junior Division (Air Wing)*  
*Mysore*

F/O S. V. Ragotham Rao (NCCJA/23027), (17th Oct. 1969 to 17th Nov. 1970).

S/O H. Satyanarayana (NCCJA/23147), (14th July 1970 to 17th Nov. 1970).

*Andhra Pradesh*

T/O P. V. Ramana Rao (NCCJA/41302), (29th Apr. 1969 to 17th Nov. 1970).

*Orissa*

F/O Chintamani Acharya (NCCJA/11098), (22nd June 1970 to 17th Nov. 1970).

No. 12, dated 9th Dec. 1970.—The President is pleased to discharge the following officers from the National Cadet Corps with effect from the date shown against their names :—

*Senior Division (Army Wing)*

*Maharashtra*

Lt. S. Kishan Rao (NCC/602), 16th July. 1968.

*Uttar Pradesh*

Capt. Raj Pal Singh (NCC/4316), 20th Feb. 1970.

*Senior Division (Air Wing)*

*Andhra Pradesh*

Flg. Offr. K. Gopala Rao (NCC/8542), 24 Sep. 1970.

*Junior Division (Army Wing)*

*Uttar Pradesh*

C/O U. Pande (NCCJ/12206), 11th July, 1970.

C/O R. K. Sharma (NCCJ/12019), 1st Oct. 1970.

C/O R. G. Sharma (NCCJ/12029), 1st June. 1970.

C/O Hira Singh (NCCJ/12133), 1st Apr. 1970.

F/O Rajendra Prasad (NCCJ/12246), 1st July, 1970.

F/O G. C. Sharma (NCCJ/12193), 4th July, 1970.

F/O K. P. Singh (NCCJ/12218), 24th June 1970.

C/O S. K. Singh (NCCJ/12115), 1st Apr. 1970.

F/O Shiv Shankar Lal (NCCJ/12257), 1st Apr. 1970.

F/O A. R. Gupta (NCCJ/13004), 1st Apr. 1970.

*Delhi*

C/O R. N. Dogra (NCCJ/6037), 1st Apr. 1970.

*Punjab*

S/O Kabal Singh (NCCJ/7679), 1st Apr. 1969.

*Mysore*

C/O M. R. Narayanaswamy (NCCJ/23002), 12th July, 1970.

*Gujarat*

T/O V. K. Thite (NCCJ/35256), 2nd June. 1968.

C/O K. G. Ganatra (NCCJ/22008), 27th Apr. 1969.

*Junior Division (Air Wing)*

*Uttar Pradesh*

C/O S. B. Singh (NCCJA/12041), 10th Nov. 1970.

*Andhra Pradesh*

T/O D. Devadanam (NCCJA/41420), 1st Apr. 1970.

No. 13, dated 19th Nov. 1970.—The President is pleased to discharge the following officers from the National Cadet Corps w.e.f. 6th November, 1970. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC :—

*Junior Division (Army Wing)**Maharashtra*

F/O G. V. Pande (NCCJ/5242), (1st July, 1969 to 5th Nov. 1970).

*Tamil Nadu*

C/O V. Dandapani (NCCJ/9173), (1st July, 1970 to 5th Nov. 1970).

T/O A. Chidambaram (NCCJ/51527), (19th June, 1970 to 5th Nov. 1970).

*Madhya Pradesh*

S/O Uitam Kumar (NCCJ/5430), (16th July, 1970 to 5th Nov. 1970).

T/O M. S. Tej (NCCJ/5544), (19th Nov. 1969 to 5th Nov. 1970).

*Uttar Pradesh*

C/O Rama Shankar (NCCJ/12099), (31st July, 1970 to 5th Nov. 1970).

S/O S. K. Sharma (NCCJ/13227), (1st Aug. 1970 to 5th Nov. 1970).

T/O J. P. Sharma (NCCJ/13393), (12th Aug. 1970 to 5th Nov. 1970).

S/O Noor Mohammad (NCCJ/13087), (6th May, 1966 to 5th Nov. 1970).

T/O S. M. Ferrao (NCCJ/13355), (9th May, 1970 to 5th Nov. 1970).

*Punjab*

T/O Charanjit Singh (NCCJ/7825), (11th Jan. 1967 to 5th Nov. 1970).

*Haryana*

S/O N. N. Gupta (NCCJ/7509), (3rd Dec. 1967 to 5th Nov. 1970).

T/O Darshan Lal Jain (NCCJ/7653), (31st July, 1965 to 5th Nov. 1970).

S/O Pratap Singh Tanwar (NCCJ/7841), (23rd Aug. 1968 to 5th Nov. 1970).

S/O Rai Singh Phogat (NCCJ/7797), (24th Aug. 1968 to 5th Nov. 1970).

T/O V. C. Chatterjee (NCCJ/8017), (23rd Aug. 1968 to 5th Nov. 1970).

F/O G. C. Jain (NCCJ/7525), (25th Aug. 1968 to 5th Nov. 1970).

S/O H. C. Bokan (NCCJ/7882), (3rd June, 1970 to 5th Nov. 1970).

*Chandigarh*

F/O Baljit Singh (NCCJ/7863), (10th Apr. 1969 to 5th Nov. 1970).

*Mysore*

F/O P. Sumathi Paul (NCCJ/23031), (22nd July, 1970 to 5th Nov. 1970).

F/O G. Ramachandra Reddy (NCCJ/23021), (2nd Sep. 1970 to 5th Nov. 1970).

S/O Mahavir Bhimarao Kalkhatgi (NCCJ/23090), (12th June, 1965 to 31st Nov. 1970).

T/O R. Narasimhan (NCCJ/23292), (18th May, 1967 to 5th Nov. 1970).

*Andhra Pradesh*

S/O S. A. Naqvi (NCCJ/41172), (22nd June, 1970 to 5th Nov. 1970).

T/O T. R. Radhakrishna (NCCJ/41372), (13th Sep. 1969 to 5th Nov. 1970).

T/O K. Kondaiah (NCCJ/41339), (7th Apr. 1967 to 31st May, 1970).

*Gujarat*

F/O U. V. Swadia (NCCJ/3258), (5th Jan. 1970 to 5th Nov. 1970).

S/O S. T. Mangtani (NCCJ/35137), (1st Sep. 1969 to 5th Nov. 1970).

S/O K. R. Patel (NCCJ/35147), (1st Apr. 1970 to 5th Nov. 1970).

T/O N. M. Darji (NCCJ/35285), (1st July, 1970 to 5th Nov. 1970).

T/O K. C. Bhatt (NCCJ/35337), (25th June, 1970 to 5th Nov. 1970).

T/O K. S. Jajal (NCCJ/35338), (15th June, 1970 to 5th Nov. 1970).

*Junior Division (Air Wing)**Delhi*

S/O R. D. Gupta (NCCJA/6123), (25th Aug. 1967 to 29th Sep. 1969).

*Punjab*

T/O Mohan Lal Arora (NCCJA/7909), (1st June, 1968 to 5th Nov. 1970).

T/O Nirkewal Singh (NCCJA/7835), (30th May, 1968 to 5th Nov. 1970).

*Gujarat*

S/O B. T. Rochwani (NCCJA/35191), (10th May, 1970 to 5th Nov. 1970).

No. 14, dated 3rd Dec. 1970.—The President is pleased to discharge the following lady officers from the NCC w.e.f. 19th Nov. 1970. The period shown in brackets against the names shall not be counted for seniority or promotion or any other benefits in the National Cadet Corps:—

*Girls Division (Junior Wing)**West Bengal*

S/O (Miss) PRANATI SARKAR (NCCJ/GD/13017), (19th May 1969 to 18th Nov. 1970).

T/O (Miss) KRISHNA BANERJEE (NCCJ/GD/13053), (15th Jul. 1970 to 18th Nov. 1970).

T/O (Mrs.) MAHA LAKSHMI RUPAL (NCCJ/GD/13050), (1st Mar. 1970 to 18th Nov. 1970).

T/O (Mrs.) MANJUSREE DUTTA (NCCJ/GD/13041), (1st Nov. 1969 to 18th Nov. 1970).

*Bihar*

S/O (Mrs.) G. P. SINHA (NCCJ/GD/14020), (11th Feb. 1969 to 18th Nov. 1970).

*Uttar Pradesh*

S/O (Mrs.) URMILA KOHLI (NCCJ/GD/14515), (26th Feb. 1970 to 18th Nov. 1970).

*Delhi*

T/O (Mrs.) S. GULYANI (nee Miss SUDERSHAN KUMARI) (NCCJ/GD/15031), (2nd Aug. 1969 to 18th Nov. 1970).

*Mysore*

T/O (Miss) H. N. AMBUJA (NCCJ/GD/18538), (5th Jul. 1970 to 18th Nov. 1970).

S/O (Miss) KOCHUTHRESIA P. J. (AMMANJ JOSEPH) (NCCJ/GD/18532), (1st Mar. 1970 to 18th Nov. 1970).

T/O (Miss) SUDHA BABURAO LAD (NCCJ/GD/18549), (15th Jul. 1970 to 18th Nov. 1970).

T/O (Miss) HARISH KUMARI KOHLY (NCCJ/GD/18542), (1st May 1970 to 18th Nov. 1970).

*Kerala*

F/O (Mrs.) SARAMMA ZACHARIA (NCCJ/GD/19014), (1st May 1970 to 18th Nov. 1970).

F/O (Mrs.) N. P. PARUKUTTY (NCCJ/GD/19003), (11th Aug. 1970 to 18th Nov. 1970).

*Andhra Pradesh*

T/O (Mrs.) TELI RACHEL NAVARATNA MANJARI (NCCJ/GD/19574), 18th Jun. 1969 to 18th Nov. 1970).

*Gujarat*

T/O (Miss) DAYAVATI SHAMJI DAMA (NCCJ/GD/22015), (16th Jun. 1969 to 18th Nov. 1970).

*Jammu & Kashmir*

S/O (Miss) ADELINE RUHI (NCCJ/GD/123), (29th Feb. 1967 to 18th Nov. 1970).

T/O (Miss) J. K. KOUL (NCCJ/GD/230), (31st May 1964 to 18th Nov. 1970).

T/O (Miss) PREM LATA GOHIL (NCCJ/GD/5500), (31st May 1967 to 18th Nov. 1970).

T/O (Miss) SWARN SHARMA (NCCJ/GD/5605), (30th Sep. 1969 to 18th Nov. 1970).

V. FERRAO, Dir. of Personnel

*(National Defence Academy)*

No. 15, dated 16th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following appointment :—

To be temporary Librarian Grade I, on probation for a period of two years, from the date indicated against his name :—

Shri SRIKRISHNA PRASAD MEHTA—5th Sep. 1970.

*Office of the Director General Armed Forces Medical Services*

No. 16, dated 16th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following *ad hoc* appointment to the post of Medical Officer (Class I—Gazetted) in the Family Planning Armed Forces w.e.f. 21st Nov. 1970 (FN) for a period of one year or till the nominee of the UPSC becomes available whichever may be earlier :—

Dr. KARTICK CHANDRA MUKERJEE.

V. A. VALIAPARAMPII, Under Secy.

*(ARMY BRANCH)*

No. 17, dated 10th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following appointment :—

*Comds. & Staff*

*To be Director General N.C.C., Ministry of Defence*

Maj.-Gen. M. G. Hazari (IC 646), P.V.S.M., A.V.S.M., 30th Jun. 1970.

P. KRISHNAMURTI, Jr. Secy.

*CORRIGENDUM*

*(GENERAL STAFF BRANCH)*

No. 18, dated 9th Dec. 1970.—The Ministry of Defence Notification No. 2469, dated 3-8-70 published in the Gazette of India, dated 19-9-70 is amended as under :—

*For* Shri Krishna Dass

*Read* Shri Krishna Das

D. J. BARAT, Asstt. C.A.O.

*ARMY BRANCH*

*(AG's Branch)*

No. 19, dated 11th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following appointment :—

Shri S. T. Nagarathinam is appointed as Statistical Officer, (Gde. IV post of ISS) w.e.f. 31st Oct. 1970, *vice* Shri P. C. Thomas transferred

No. 20, dated 9th Dec. 1970.—The President is pleased to appoint Shri D. R. S. Kapoor, perm. Supdt. as offg. Civilian Staff Officer, in the AFHQ Civil Service, w.e.f. 23rd Nov. 1970, until further orders, *vice* Shri D. S. Verma, proceeded on 120 days' leave.

R. D. JAIN, Asstt. C.A.O.

No. 21, dated 14th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following appointment :—

*Army Headquarters*

*To be A.G.*

Lt.-Gen. H. K. Sibal (IC 254), M.V.C., 23rd Nov. 1970.

P. KRISHNAMURTI, Jr. Secy.

No. 22, dated 17th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 3 years under A.I. 208/59 as modified by M. of D. letter No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/6910/V/D(Med.), dated 31st Dec. 1965 and No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/2000/D(Med.), dated 18th April 1970 :—

*REGULAR ARMY*

*Short Service Commission*

*To be Capt. (on probn.)*

Gurdarshan Singh SIDHU, M.B., B.S., (MS-7501), A.M.C., 18th Jan. 1966.

(M. of D. Notns. No. 196, dated 3rd Jan. 1967 published in the Gazette of India, dated 21st Jan. 1967, No. 1753, dated 8th June 1967 published in the Gazette of India, dated 24th June 1967 and No. 236(ii), dated 17th Jan. 1969 published in the Gazette of India, dated 1st Feb. 1969 in respect of this officer are hereby cancelled.)

(Miss) Sobha SII., M.B., B.S., (MS-7544), A.M.C., 21st Mar. 1966.

(M. of D. Notns. No. 3152, dated 30th Nov. 1966 published in the Gazette of India, dated 17th Dec. 1966, No. 2422 dated 26th Aug. 1967 published in the Gazette of India, dated 9th Sep. 1967 in respect of this officer are hereby cancelled.)

(Miss) Jayati MOOKHERJEE, M.B., B.S., (MS-7545), A.M.C., 21st Mar. 1966.

(M. of D. Notns. No. 3152, dated 30th Nov. 1966 published in the Gazette of India, dated 17th Dec. 1966, No. 3251, dated 29th Nov. 1967 published in the Gazette of India dated 2nd Dec. 1967 and No. 1302(v), dated 6th May 1969 published in the Gazette of India, dated 31st May 1969 in respect of this officer are hereby cancelled.)

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.



No. 23, dated 9th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## (AOC)

The undermentioned HC Gdc. I to be tempy. OO Civ. (Admin.) on probn. for two years w.e.f. the date shown against his name :—

Shri P. S. GADHOKE—17th Nov. 1970 (FN).

The undermentioned CSKs Gdc. I to be tempy. Civ. (Stores) on probn. for two years w.e.f. the date shown against their names :—

1. Shri ONKAR NATH—16th Nov. 1970 (FN).

2. Shri O. P. NARANG—2nd Nov. 1970 (FN).

3. Shri S. TILAK—1st Nov. 1970 (FN).

4. Shri P. B. GANGULY—14th Nov. 1970 (FN).

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

No. 24, dated 16th Dec. 1970.—The President is pleased to grant the local rank of Brig., without effect on pay and pension, to the undermentioned officer w.e.f. 3rd Dec. 1970, whilst employed as Director, Defence Institute of Work Study, Landour :—

Lt.-Col. (A/Col.) O. P. Chopra (IC 4626), E.M.E.

No. 25, dated 17th Dec. 1970.—The undermentioned officer is granted the local rank of Lt. Col. without effect on pay and pension, whilst employed as Assistant Military Attache in MOSCOW (USSR) :—

Maj. GURINDER SINGH (IC 6123) 4 HORSE, 8th Feb. 1970.

K. C. BOSE, Dy. Secy.

No. 26, dated 27th Oct. 1970.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer consequent on completion of his probationary period :—

## REGULAR ARMY

## Permanent Commission

A. V. T. K. Rao (MR-1819) A.M.C., 21st February 1965.

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

No. 27, dated 16th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following promotion :—

## REGULAR ARMY

## Permanent Commission

## To be Subs. Brig.

Col. B. Chandra (V 18), R.V.C., 25th Feb. 1970.

K. C. BOSE, Dy. Secy.

No. 28, dated 16th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## Infantry

## The Dogra Regt.

## To be Sub.

Nb. Sub. Balwant Singh (JC-34768) and Nb. Sub. Ram Rath (JC-34617), 1st Sep. 1970.

Nb. Sub. Nanak Chand (JC-48660), 24th Sep. 1970.

## 1 GR

## To be Sub.

Nb. Sub. Bishan Singh Thapa (JC-33962), 4th May 1970.  
Nb. Sub. Shiv Parsad Ale (JC-34547), 6th May 1970.

## 3 GR

## To be Sub.

Nb. Sub. Nar Sing Thapa (JC-35406) and Nb. Sub. Bir Bahadur Thapa (JC-36706), 18th June 1970.

## 8 GR

## To be Sub.

Nb. Sub. Bhimbahadur Gurung (JC-35160), 2nd Oct. 1970.

## To be Sub. (Clerk)

Nb. Sub. Clk. Tekbahadur Rai (JC-22285), 9th Oct. 1970.

## 9 GR

## To be Sub.

Nb. Sub. Sher Bahadur Mall (JC-36571), 5th Jun. 1970.

## The Kumaon Regt.

## To be Sub.

Nb. Sub. Chhalu Ram (JC-30332), 8th Mar. 1970.

Nb. Sub. Mahipal Singh (JC-30448), 7th June 1970.

Nb. Sub. Gusai Singh (JC-23655), 15th June 1970.

Nb. Sub. Ram Singh (JC-34627), 17th July 1970.

Nb. Sub. Bishan Singh (JC-36140), 4th Aug. 1970.

Nb. Sub. Ganga Datt (JC-37030), 25th Sep. 1970.

Nb. Sub. Kalyan Singh (JC-36143), 14th May 1970.

## The Madras Regt.

## To be Sub.

Nb. Sub. A. P. Purushothama Das (JC-20872), 20th May 1970.

Nb. Sub. Sivan Chettiyar (JC-35537), 23rd Sep. 1970.

## To be Sub. (Clerk)

Nb. Sub. Clk. P. Karupusamy (JC-24807), 5th Oct. 1970.

## The Raj. Rif.

## To be Sub.

Nb. Sub. Bipati Singh (JC-34312), 17th Oct. 1970.

## The Grenadiers

## To be Sub.

Nb. Sub. Rup Chand (JC-23877), 24th July 1970.

Nb. Sub. Om Parkash (JC-27720), 31st Aug. 1970.

Nb. Sub. Karan Singh (JC-23283), 21st Sep. 1970.

Nb. Sub. Ramji Lal (JC-25908), 24th Sep. 1970.

## Corps of Engineers

## Bengal Engineer Group

## To be Sub.

Nb. Sub. Gobar Dhan (JC-23350), 2nd Sep. 1970.

Nb. Sub. Sampuran Singh (JC-26126) and Nb. Sub. Hari Datt (JC-38079), 3rd Sep. 1970.

Nb. Sub. Gurcharan Singh (JC-21168), 7th Sep. 1970.

## To be Sub. Clk. (Store)

Nb. Sub. Clk. I. Joseph (JC-13017), 5th Sep. 1970.

## To be Sub. (Clk.)

Nb. Sub. Clk. Satindelpal Singh (JC-19502), 4th Sep. 1970.

Nb. Sub. Clk. Dharma Nand (JC-19504), 5th Sep. 1970.  
 Nb. Sub. Clk. Balbir Singh (JC-19507), 16th Sep. 1970.  
 Nb. Sub. Clk. Sadhu Singh (JC-19508), 17th Sep. 1970.  
 Nb. Sub. Clk. Puran Singh (JC-19509), 20th Sep. 1970.  
 Nb. Sub. Clk. Chandar Ballabh (JC-19511), 23rd Sep. 1970.  
 Nb. Sub. Clk. Surendra Datt (JC-20248), 29th Sep. 1970.  
 Nb. Sub. Clk. Baldev Raj (JC-20251) and Nb. Sub. Clk. Gurbachan Singh (JC-25238), 1st Oct. 1970.

*Corps of Signals*  
*To be Sub. (GD)*

Nb. Sub. Bhagwant Singh (JC-32064), Nb. Sub. M. C. John (JC-32065) and Nb. Sub. Gurbachan Singh Bajwa (JC-32069), 1st Oct. 1970.  
 Nb. Sub. P. Gopinathan (JC-32070), 3rd Oct. 1970.  
 Nb. Sub. Prem Singh (JC-32077), 4th Oct. 1970.  
 Nb. Sub. Hans Raj (JC-32078), 5th Oct. 1970.  
 Nb. Sub. Tarlochan Singh (JC-32079), 6th Oct. 1970.  
 Nb. Sub. Gulwant Singh (JC-32081), 9th Oct. 1970.  
 Nb. Sub. Pishori Lal (JC-32085), 10th Oct. 1970.  
 Nb. Sub. Ganpat Rai (JC-32087) and Nb. Sub. Sangat Singh (JC-32088), 12th Oct. 1970.  
 Nb. Sub. Nachhatar Singh (JC-32089), 15th Oct. 1970.  
 Nb. Sub. Lekh Raj (JC-32090), 18th Oct. 1970.  
 Nb. Sub. A. Kumaran (JC-32091) and Nb. Sub. Harbans Singh (JC-32092), 22nd Oct. 1970.  
 Nb. Sub. Pritam Singh (JC-32093), 24th Oct. 1970.  
 Nb. Sub. Gian Singh (JC-32094), Nb. Sub. Dharam Pal (JC-32098), Nb. Sub. Mohan Lal (JC-32101) and Nb. Sub. Bhajan Singh (JC-32103), 26th Oct. 1970.  
 Nb. Sub. C. L. George (JC-32104) and Nb. Sub. Jagir Singh (JC-32105), 29th Oct. 1970.

*To be Sub. (Clerk)*

Nb. Sub. Clk. Piara Singh (JC-27326), 17th Oct. 1970.

*To be Sub. (F of S)*

Nb. Sub. A. V. Choyi (JC-40754) and Nb. Sub. Sarwan Singh Mangat (JC-48209), 3rd July 1970.

Nb. Sub. Ajit Singh (JC-48210), Nb. Sub. Kartar Chand (JC-48211), Nb. Sub. Partap Singh (JC-48212), Nb. Sub. Gobind Singh (JC-48214), Nb. Sub. S. D. Ganesh (JC-48215) and Nb. Sub. Gurbachan Singh (JC-48216), 18th July 1970.

Nb. Sub. Gurcharan Singh (JC-48217), Nb. Sub. Upendro Apato (JC-48218), Nb. Sub. Udey Bhan (JC-48219), Nb. Sub. Kamta Singh (JC-48220), Nb. Sub. Mohan Singh (JC-48225), Nb. Sub. Surendra Nath Pujari (JC-48226) and Nb. Sub. M. S. Sreedharan (JC-48227), 18th Aug. 1970.

Nb. Sub. Baldev Singh (JC-48228), Nb. Sub. Jai Datt Joshi (JC-48230), Nb. Sub. Atam Singh (JC-48231), Nb. Sub. Tarlok Singh (JC-48233), Nb. Sub. Himansh Roy Mankad (JC-48234), Nb. Sub. Indrapul Singh (JC-48235), Nb. Sub. S. Kuppu Swamy (JC-48237) and Nb. Sub. Bhagwan Singh (JC-49732), 30th Aug. 1970.

*To be Sub. (Y of S)*

Nb. Sub. Hardial Singh (JC-37282), Nb. Sub. N. Narayanan (JC-42799), Nb. Sub. Samund Singh (JC-44761), Nb. Sub. Krishna Chandra Maharana (JC-48199), Nb. Sub. Prasanna Kumar Patanaik (JC-48200), Nb. Sub. P. V. Sankaran (JC-48201) and Nb. Sub. R. K. Mehta (JC-48202), 1st June 1970.

Nb. Sub. Dalbir Singh (JC-48203), Nb. Sub. Rameshwar Singh (JC-48204), Nb. Sub. Kartar Singh (JC-48205), Nb. Sub. Sukesh Kumar (JC-48206), Nb. Sub. K. Narayanan

(JC-48208), Nb. Sub. Ram Chand (JC-49726), Nb. Sub. Baldev Singh (JC-49727), Nb. Sub. Om Parkash (JC-49728) and Nb. Sub. Hira Singh Nagra (JC-49729), 10th July 1970.

*Armoured Corps*

*To be Ris. (Clerk)*

Nb. Ris. Clk. Harbhajan Singh (JC-43702), 11th Aug. 1970.  
 Nb. Ris. Clk. Bhagwan Singh (JC-44569), 8th Oct. 1970.  
 Nb. Ris. Clk. Hari Singh (JC-44570), 21st Oct. 1970.

*To be Ris. Maj.*

Ris. Shri Ram (JC-15042), 6th Oct. 1970.

*To be Ris.*

Nb. Ris. Jai Bhagwan Singh (JC-39797), 25th Mar. 1970.  
 Nb. Ris. Narain Singh (JC-26485), 23rd May 1970.  
 Nb. Ris. Fateh Singh (JC-27364), 30th May 1970.  
 Nb. Ris. Atgna Singh (JC-28578), 30th June 1970.  
 Nb. Ris. Amar Singh (JC-26488) and Nb. Ris. Chhida Singh (JC-31518), 20th July 1970.  
 Nb. Ris. Mohd. Ayyub Khan, Vrc (JC-32607), 22nd July 1970.  
 Nb. Ris. Man Singh (JC-32689), 4th Sep. 1970.  
 Nb. Ris. Vasant Rao Sawant (JC-33099), 5th Oct. 1970.

HOSHNAK SINGH, Under Secy.

No. 29, dated 10th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**

*Corps of Electrical and Mechanical Engineers*

*To be Sub. Maj, Armt Art & Artz (Eligible Categories)*

Sub. Nirmal Singh (JC-59340), Sub. Mehar Chand (JC-59331), Sub. Ganpat Rai Hasija (JC-56016), Sub. Ram Sarup (JC-58598), Sub. Jaswant Singh Bindra (JC-57848), Sub. Dwarka Nath (JC-59345), Sub. Harcharan Singh (JC-58595), Sub. Devraj Singh (JC-59359), Sub. Ram Narain (JC-58596), Sub. G. V. Abhayankar (JC-57830), Sub. OEP David (JC-47653), Sub. KP Chakkoru (JC-3508), Sub. Devi Dass (JC-47585) and Sub. Jaswant Singh (59329-JC), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. Storekeeper Tech.*

Naib Sub. Baldev Raj Bali (JC-26440), Naib Sub. Chain Singh (JC-27022), Naib Sub. Ramendra Kumar Nath (JC-27110), Naib Sub. Hukam Singh (JC-27024), Naib Sub. Balkrishan Vaid (JC-27287), Naib Sub. Vishwanath Sharma (JC-27245), Naib Sub. Nawal Kishore (JC-27288), Naib Sub. Santosh Kumar Bagchi (JC-27246), Naib Sub. Umamanda Chaudhury (JC-27248), Naib Sub. PT Baby (JC-27249), Naib Sub. Kidar Nath (JC-32716), Naib Sub. K. Vasudevan Pillai (JC-32654), Naib Sub. N. Saharaghan Nair (JC-32717), Naib Sub. Murlil Mohan Seth (JC-32718) and Naib Sub. Brahmanand Upadheya (JC-32673), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. (Driving Wing)*

Naib Sub. Diwan Singh (JC-37195), Naib Sub. Ram Das Shukla (JC-36368), Naib Sub. Dwarka Nath (JC-35460), Naib Sub. T. Acharya (JC-36373), Naib Sub. Lalita Prasad Mishra (JC-36372), Naib Sub. Gamir Singh (JC-37179), Naib Sub. Ganpat Singh Rawat (JC-37181), Naib Sub. Om Prakash (JC-37182), Naib Sub. Hans Raj (JC-37467), Naib Sub. Murni Lal Singh (JC-37184), Naib Sub. Tirth Nath (JC-37185), Naib Sub. Jai Karan Singh (JC-37186), Naib Sub. Nimb Singh (JC-37189), Naib Sub. Shankar Singh (JC-37190), Naib Sub. S. Gopal (JC-35456), Naib Sub. MA Thomas (JC-37194), Naib Sub. Bhimanna Gondali (JC-37466), Naib Sub. Madhu (JC-37196), Naib Sub. Atma

Singh (JC-38813), Naib Sub Beg Raj (JC-38812), Naib Sub Padarn Chand (JC-38815), Naib Sub. MS Chellappan Pillai (JC-39736), Naib Sub. Gopi (JC-38816), Naib Sub. A. Anthony (JC-37469), Naib Sub. V. Singara Velu (JC-37471), Naib Sub. VN Rajappan Pillai (JC-37478), Naib Sub. Venkatesan (JC-39737), Naib Sub. Mandadi Jacobe (JC-37473), Naib Sub. Kunwar Pratap Singh Punwar (JC-39738), Naib Sub. Prem Singh (JC-37474), Naib Sub. Nahar Singh (JC-37475), Naib Sub. Lachmanan (JC-37476), Naib Sub. Madhavan Nambiar (JC-37477), Naib Sub. Chiman Singh Rawat (JC-37483) and Naib Sub. N. Raman (JC-38818), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. Artz (Non-Eligible Categories)*

Naib Sub. Gajraj Singh (JC-18651), Naib Sub. M. Krishnan Nair (JC-35463), Naib Sub. BR Narsimha Murthy (JC-35465), Naib Sub. Jagannatha Rao Jorgalkar (JC-37459), Naib Sub. Appukuttan (JC-37460), Naib Sub. CV Raman Nair (JC-37461), Naib Sub. Jaswant Singh (JC-37462), Naib Sub. KP Chinna Palani (JC-39714), Naib Sub. Prakash Singh (JC-39715), Naib Sub. Doodh Nath Dubey (JC-39716), Naib Sub. Harsukh Ram (JC-42196), Naib Sub. Kasturi Lal (JC-39720), Naib Sub. Subhin Chandra Nath (JC-39725), Naib Sub. Periya Nayagam (JC-39723), Naib Sub. Subbiah (JC-39727), Naib Sub. MS Arumugam (JC-39726), Naib Sub. Sadanand Tewari (JC-38776), Naib Sub. Bharanar Swain (JC-38775) and Naib Sub. V. Balakrishna Menon (JC-40114), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. Maj. (Driving Wing)*

Sub. Vasant Shindhe (JC-3433), 1st July 1970.

*To be Sub. Armt Art & Artz (Eligible Categories)*

Naib Sub. B. Raja Ram (JC-13376), Naib Sub. Rābindra Mohan Bose (JC-13818), Naib Sub. Ram Parkash (JC-14779), Naib Sub. Jagdishwar Datt (JC-14782), Naib Sub. Sampuran Singh (JC-16255), Naib Sub. Bhanu Rasmi Dass Gupta (JC-16260), Naib Sub. Ram Kishan (JC-17742), Naib Sub. David (JC-18653), Naib Sub. Onkar Singh (JC-18656), Naib Sub. Mansha Singh (JC-18661), Naib Sub. Amar Singh (JC-18673), Naib Sub. Chandu Lal (JC-19526), Naib Sub. Jai Chand (JC-19058), Naib Sub. Karnail Singh (JC-19386), Naib Sub. Mulakh Rai (JC-19543), Naib Sub. Ramachandra Vishnu Sutar (JC-19385), Naib Sub. Hari Har Singh (JC-19111), Naib Sub. Santan D'Souza (JC-21378), Naib Sub. Pritam Singh (JC-22825), Naib Sub. T. Chandra Sekharan (JC-24468), Naib Sub. Jadu Nandan Singh (JC-24467), Naib Sub. Padma Nabhan (JC-26979), Naib Sub. Madan Mohan Sil (JC-27933), Naib Sub. Pran Dass (JC-31117), Naib Sub. Siri Ram (JC-28354), Naib Sub. Sunder Dass (JC-28366), Naib Sub. Sudhir Chandra Patnaik (JC-28880), Naib Sub. Govinda Kurup (JC-28700), Naib Sub. Krishan Kumar Dube (JC-28379), Naib Sub. Ascharaj Singh (JC-28887), Naib Sub. Sudershan Kumar Sharma (JC-28864), Naib Sub. M. Jagannath (JC-31427), Naib Sub. Bishal Mani (JC-32671), Naib Sub. Om Parkash (JC-32931), Naib Sub. Gurcharan Singh (JC-33865), Naib Sub. Hira Singh (JC-33858), Naib Sub. Kunwar Singh (JC-33894), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. Clerk (GD)*

Naib Sub. VM George (JC-18640), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. Artz (Non-Eligible Categories)*

Naib Sub. BJ Mandanna (JC-17820), Naib Sub. M. Pushpa Rajan (JC-18693) and Naib Sub. PS Arumugam (JC-19070), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. (Driving Wing)*

Naib Sub. Hari Shankar (JC-20404), Naib Sub. Suryani (JC-23751), Naib Sub. Ganga Singh (JC-35445) and Naib Sub. Chappanda Kannaian (JC-35457), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. Storekeeper*

Naib Sub. Babu Dhan Thepa (JC-22874) and Naib Sub. Umrao Singh (JC-26460), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. Armourer*

Naib Sub. Kishan Singh (JC-19551) and Naib Sub. Amar Nath Chopra (JC-31157), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. Armt Art & Artz (Eligible Categories)*

Naib Sub. Bhag Singh (JC-32972), Naib Sub. Nakul Singh (JC-32971), Naib Sub. Surjan Singh (JC-32932), Naib Sub.

Lakshmi Narayan Ganguly (JC-32979), Naib Sub. Shankar Singh (JC-32973), Naib Sub. Jagadish Chander Chadha (JC-32974), Naib Sub. Sardul Singh (JC-32933), Naib Sub. I. D. Arul Dass (JC-32981), Naib Sub. Ilam Singh (JC-32982), Naib Sub. Om Parkash (JC-32983), Naib Sub. Gurmit Singh (JC-32984), Naib Sub. Bachan Singh (JC-32934), Naib Sub. Kidar Nath (JC-32955), Naib Sub. Rattan Chand (JC-32980), Naib Sub. Tarlok Singh (JC-32985), Naib Sub. Mohinder Singh (JC-32986), Naib Sub. Vasdev Khand Puri (JC-32975), Naib Sub. Narindar Singh (JC-32976), Naib Sub. Jaikaran Singh (JC-32987), Naib Sub. Sarvjit Singh (JC-32660), Naib Sub. Madhukar Naik (JC-33855), Naib Sub. N. Kanna Biran (JC-33839), Naib Sub. K. Subraya (JC-33874), Naib Sub. Mohan Lal (JC-33841), Naib Sub. G. Venkata Swamy (JC-33842), Naib Sub. Krishan Lal Dutta (JC-33843), Naib Sub. Pran Nath Sharma (JC-33844), Naib Sub. Ganpat Rai (JC-33845), Naib Sub. Bhim Saini (JC-34434), Naib Sub. Bharat Bhushan (JC-33847), Naib Sub. Tilak Raj (JC-33849), Naib Sub. Budhi Singh (JC-34435), Naib Sub. Gulab Singh Rawat (JC-33850), Naib Sub. Mohinder Singh (JC-33851), Naib Sub. Gurnam Singh (JC-33852), Naib Sub. Dinesh Chandra Sarkar (JC-31126), Naib Sub. Ramji Dass (JC-33853), Naib Sub. Rajindar Singh (JC-33854), Naib Sub. Kaitharan Rappai Poulouse (JC-33859), Naib Sub. N. Kutty Krishnan Nair (JC-33862), Naib Sub. C. S. Jayavelu (JC-33864), Naib Sub. Harbans Lal (JC-33866), Naib Sub. Amar Nath (JC-33868), Naib Sub. Hardev Singh (JC-33870), Naib Sub. Ganapathy (JC-33871), Naib Sub. Hem Raj (JC-33872), Naib Sub. Sulakhan Singh (JC-33873), Naib Sub. Pritam Lal (JC-33880), Naib Sub. Namdeo Raskar (JC-33892), Naib Sub. Jasmer Singh (JC-35422), Naib Sub. V. K. Bala Subramaniam (JC-33923), Naib Sub. G. V. Rao Choudry (JC-33924), Naib Sub. Thakur Singh Aswal (JC-33927), Naib Sub. Mansha Singh (JC-33930), Naib Sub. Butai Ram (JC-33931), Naib Sub. Raghunath Singh (JC-33933), Naib Sub. Sohan Singh (JC-33899), Naib Sub. Budh Dev (JC-33900), Naib Sub. Bansi Lal (JC-33901), Naib Sub. Kailash Chander (JC-33903), Naib Sub. Madan Mohan Singh (JC-33905), Naib Sub. Ram Piara (JC-33904), Naib Sub. Sunder Dogra (JC-28709), Naib Sub. Sri Ram Vohra (JC-33895), Naib Sub. Vasant Maival (JC-33906), Naib Sub. Milkha Singh (JC-34436), Naib Sub. Rakha Hari Manna (JC-33908), Naib Sub. Nirmal Singh (JC-34437), Naib Sub. Radhey Shiam (JC-35420), Naib Sub. Ram Kishan (JC-33882), Naib Sub. Balwant Singh (JC-33884), Naib Sub. Sucha Singh (JC-33885), Naib Sub. Kartick Chandra Raha (JC-33886), Naib Sub. Purn Singh (JC-33887), Naib Sub. Gurbux Singh (JC-33888), Naib Sub. Dwarka Prasad Gupta (JC-33889), Naib Sub. Achhar Singh (JC-33890), Naib Sub. Suraj Mal (JC-33918), Naib Sub. Ram Parkash (JC-33919), Naib Sub. Jaswant Singh (JC-33920), Naib Sub. Hem Raj Singh (JC-33896), Naib Sub. Sadhu Singh (JC-33897), Naib Sub. Kewal Singh (JC-33934), Naib Sub. Khayli Ram Pandey (JC-33935), Naib Sub. AT Thomas (JC-33936), Naib Sub. Joginder Singh Saini (JC-33937), Naib Sub. Madan Singh (JC-33938), Naib Sub. Shiv Narain (JC-35421), Naib Sub. Kandarpa Chakraverty (JC-33909), Naib Sub. Thiyaga Rajan (JC-33910), Naib Sub. Haveli Ram (JC-33912), Naib Sub. Kishore Lal (JC-36261), Naib Sub. Malkiat Singh (JC-33913), Naib Sub. Ghan Sham Dass (JC-33914), Naib Sub. Chand Parkash (JC-33915), Naib Sub. Bansi Lal Yadva (JC-33916), Naib Sub. Onkar Chand (JC-33917), Naib Sub. Joginder Singh (JC-35424), Naib Sub. Kanshi Ram (JC-37080), Naib Sub. Promodh Singh (JC-36346), Naib Sub. P. Velayudha Menon (JC-36310), Naib Sub. Ram Singh (JC-37081), Naib Sub. Madan Gopal Mehta (JC-36298), Naib Sub. Ram Dass (JC-36300), Naib Sub. Sushil Kumar Bose (JC-36447), Naib Sub. T. P. Kelunni Menon (JC-36301), Naib Sub. Kasturi Lal Sharma (JC-36302), Naib Sub. PC Poorna Chandra Reddy (JC-36303), Naib Sub. Kapal Deo (JC-36305), Naib Sub. Kamal Dev (JC-36306), Naib Sub. Bhim Singh (JC-36307), Naib Sub. Ram Kumar (JC-36308), Naib Sub. K. Radha Krishan (JC-36309), Naib Sub. Bhavi Chand (JC-36263), Naib Sub. Kundan Lal (JC-36262), Naib Sub. Gian Singh (JC-366265), Naib Sub. Gajjan Singh (JC-36266), Naib Sub. Hira Singh (JC-36319), Naib Sub. Bhagwant Singh (JC-36320), Naib Sub. Piara Singh (JC-36267), Naib Sub. Prem Chand (JC-36268), Naib Sub. Chaiten Swarup (JC-36321), Naib Sub. KK Malhotra (JC-36269), Naib Sub. Major Singh (JC-36270) and Naib Sub. Hoshier Singh (JC-36322), 1st Aug. 1970.

*To be Sub. Armourer*

Naib Sub. T. L. Raphael (JC-33833), Naib Sub. Satya Narain Singh (JC-19535), Naib Sub. Moti Lal (JC-33834), Naib Sub. Gurcharan Singh (JC-33875), Naib Sub. Laxmi

Chand (JC-33835), Naib Sub. Bachan Singh (JC-35428), Naib Sub. Girdhari Narain Singh (JC-35426), Naib Sub. Chandra Deep Giri (JC-35429), Naib Sub. Bhagwan Singh (JC-35427), Naib Sub. PC Balachandran (JC-37167), Naib Sub. K. Krishnan (JC-37168), Naib Sub. RP Goswamy (JC-37174), Naib Sub. Muni Lal (JC-37169), Naib Sub. Raj Singh (JC-37170) and Naib Sub. Narender Singh (JC-37172), 1st Aug. 1970.

T. JACOB, Under Secy.

No. 30, dated 2nd Nov. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish SSC on probn. in the rank of 2/Lt. in the A.M.C., consequent on his/her simultaneous appointment to SSC in the A.M.C., under A/ 208/59, as modified by Ministry of Defence letter No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/6910/V/D(Med.), dated 31st Dec. 1965 for a period of 5 years w.e.f. 4th May 1970 as follows—

REGULAR ARMY

Short Service Commission

To be Lt. (on probn.)

Naresh Chandra MEHTA M.B., B.S., (MS-8373), A.M.C.

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

No. 31, dated 14th Dec. 1970.—The undermentioned officer retired w.e.f. the date indicated against his name:—

REGULAR ARMY

(AOC)

Shri PINDI DASS Tempy. OO Civ. (Stores)—10th Oct. 1970 (FN).

S. K. KAK, Under Secy.

No. 32, dated 16th Dec. 1970.—Corrigendum.—In M. of D. Notn. No. 199, dated 12th Jan. 1970 published in the Gazette of India dated 24th Jan. 1970 under heading 'REGULAR ARMY' sub-heading 'Corps of Engineers' and 'MES Military Cadre' below 'To be Sub. Maj.' :—

(i) insert sub-heading 'To be Sub. (Clerk)' above the name of Nb. Sub. Clk. S. Gabriel JC-18367.

(ii) for 'Nb. Sub. Clk. M. Prabhakaran Nair JC-18375' read 'Nb. Sub. Clk. M. Prabhakaran Nair JC-18375'.

HOSHNAK SINGH, Under Secy.

Military Lands and Cantonments Service

No. 33, dated 15th Dec. 1970.—Under rule 12A(c)(ii) of the Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II), Rules 1951, the President is pleased to make the following short-term temporary appointment by transfer on deputation to Class II, of the ML&C Service, for a period of one year.

Shri A. V. VARADKAR, an officer of the Govt. of Maharashtra, 2nd Nov. 1970 (FN).

V. A. VALLAPARAMPIL, Under Secy.

(Navy Branch)

No. 34, dated 9th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following appointments under Regulation 166, of Regs. Navy Part III :—

Indian Navy

Permanent Commission

Instructor Branch

AGRAWAL TANSUKH RAI, BAHU SUBHASH CHANDER, GHAI BRIJ MOHAN, ROBIN ALOYSIUS PAUL ANDRADE and SINGH MALVINDER. To be Ag. Instr. Sub. Lieuts w.e.f. 13th Apr. 1970 on probation.

No. 35, Dated the 28th November 1970—The President is pleased to make the following appointments :—

INDIAN NAVY

Permanent Cadre

Master Chief Petty Officers

To be Master Chief Petty Officers Second Class from the date(s) as shown in column 5 below vide Navy Instruction 15/69.

Sl. No.	Name	Rate	No.	Date
1	2	3	4	5
1.	P K S Panichker	CPO (TASI)	13399	1-1-70
2.	B Nath	CPO (QMI)	22253	1-1-70
3.	V Naik	CPO (GLI)	26552	1-1-70
4.	P Narayan	CPO (PRI)	29063	1-1-70
5.	S Singh	CPO (GLI)	30427	1-1-70
6.	P Narayan	CPO (GLI)	34357	1-1-70
7.	G Ram	CPO (GLI)	36114	1-1-70
8.	S Singh	CPO (QRI)	36403	1-1-70
9.	K K Chakravarthi	CPO (QRI)	40980	1-1-70
10.	M Singh	CPO (GLI)	41694	1-1-70
11.	D Singh	CPO (GI)	45026	1-1-70
12.	K Kuthappan	CYS	39429	1-1-70
13.	C K Pisharody	CPO TEL	20443	1-1-70
14.	G Singh	MECH 3	44341	16-3-70
15.	Y R C Dass	MECH 3	48093	16-3-70
16.	S S Yadave	ERA 3	49344	18-5-70
17.	M S Rawat	ERA 3	49408	14-5-70
18.	E M Aga	AG CH	61456	1-1-70
		MECH (TY)		
19.	C A Nair	MECH 3	64413	27-4-70
20.	K V Verghese	MLCH 3	64938	2-2-70
21.	M R Sharma	CPO M(E)	61867	1-1-70
22.	B C Biswas	CH SWA	50616	1-1-70
23.	M K Nair	MECH(R) 3	47290	1-1-70
24.	A S Bahar	AG CH EAR	47430	1-1-70
25.	K Dev	AG CH EAR	50744	1-1-70
26.	N C G Kutty	CH ELP	48121	1-1-70
27.	I Mathew	CPO WTR	41993	1-1-70
28.	J S Misra	SCPO	62252	1-1-70
29.	T P J Thomas	SCPO	62339	1-1-70
30.	J Barua	CPO CK(O)	17912	1-1-70
31.	J E K Menon	CPO MA	35141	1-1-70
32.	R Nambiar	CH A(AH)	61284	1-1-70
33.	A Singh	CH A(AH)	60178	1-1-70
34.	R Chander	CHAM(W)	45361	1-1-70
		(TY)		
35.	S Sharma	CPOAF	46107	1-1-70
36.	S Singh	CPO(GI)	60713	1-1-70
37.	B Lal	CPO(GLI)	9121	1-1-70
38.	T Walker	CPO (GLI)	15194	1-1-70
		(TY)		

1	2	3	4	5
39.	M Singh . . . . .	CPO (QRI)	33311	1-1-70
40.	S Singh . . . . .	CPO(QRI)	35716	1-1-70
41.	V Pai . . . . .	CPO (G1)	43288	15-12-68
42.	H Singh . . . . .	CPO(QI)	43564	1-1-70
43.	C Johnson . . . . .	MAA	42171	1-1-70
44.	P K R Pillai . . . . .	CPO TEL	23079	1-1-70
45.	R Chettri . . . . .	AG CH ERA	50618	1-1-70
46.	M K Kultan . . . . .	MECH 3	64414	2-3-70
47.	R C Sood . . . . .	SWA 3	50856	8-6-70
48.	K S Hothi . . . . .	CH ELP	48105	1-1-70
49.	T K Murthy . . . . .	AG CH MECH (P)	36149	1-1-70
50.	D L Esteve . . . . .	AG CH ELP (M)	50800	1-1-70
51.	A M Rai . . . . .	EAP(M) 3	50776	15-12-68
52.	M K Basheer . . . . .	EAP(M) 3	50826	25-5-70
53.	B Saha . . . . .	EAP 3	50837	22-6-70
54.	R Kumar . . . . .	CH ELR	65363	1-7-69
55.	A S K Prasad . . . . .	AA 3	50835	24-8-69
56.	J K Swamy . . . . .	AM(W) 3	47094	8-6-70
57.	P S Sandhu . . . . .	CH FLA	48195	31-3-70
58.	T P C Nair . . . . .	CH ELAR	64525	1-1-70

JAWAHIR SINGH, Under Secy.

(Navy Branch)

No. 36, dated 9th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following appointments :—

Shri V. G. ROY, Pmt. DNSO, Ty. NSO appointed to carry out the current duties of Director of Stores in addition to his own *vice* Commodore C. MEHTA granted annual leave from 16th Jul. 1970 to 29th Aug. 1970.

Shri N. S. SAHOTA, Pmt. Chief D'Man (Elect) to carry out the current duties of Technical Assistant (Design/Electrical) independently *vice* Shri G. G. ATTUKAR, Technical Assistant (Design/Electrical) granted leave from 25th May 1970 to 11th Jul. 1970.

Shri M. PANICKAR, Pmt. SHM offg. Senior Foreman of Stores to be officiating Assistant Naval Store Officer *vice* Shri A. J. TRINIDADE, ANSO granted leave from, 4th May 1970 to 12th Sep. 1970.

Shri M. M. KAMAT, Pmt. Foreman of Stores, Ty. Asstt. Naval Store Officer to be in charge of the current duties of the post of Deputy Naval Store Officer independently *vice* Shri C. F. CASTELLINO, DNSO granted leave from, 14th Apr. 70 to 28th May 70.

Shri K. GOPALAN, Pmt. Foreman of Stores, Ty. Senior Foreman of Stores to be officiating Assistant Naval Store Officer *vice* Shri M. M. KAMATH, Asstt. Naval Store Officer from 15th Apr. 70 to 28th May 1970.

Shri R. GANESAN, Pmt. UDC, Ty. Supdt., to be officiating Assistant Armament Supply Officer *vice* Shri K. A. KARIM, AASO granted leave from 4th May 70 to 1st Aug. 1970.

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

No. 37, dated 16th Dec. 1970.—The President is pleased to grant perm. reserve commission on probation to the undermentioned Indian Naval Volunteer Reserve Officers w.e.f. the dates shown against their names under Regulations for the Navy Part III, Statutory :—

Indian Naval Volunteer Reserve

(Permanent Commission)

Executive Branch

To be Sub. Lt.

RATTAN LAL KOUL, 1st Apr. 1970.

To be Ag. Sub. Lt.

RAJIVE PILO, 17th Apr 1970.

Engineering Branch

To be Sub. Lt.

BHUPINDER SINGH GILL, 1st Apr. 1969.

RITUMBER NATH KHOSLA, 1st Apr. 1970.

Electrical Branch

To be Sub. Lt.

SURESH CHANDRA CHAURASIA, 1st Apr. 1970.

JAWAHIR SINGH, Under Secy.

No. 38, dated 13th Dec. 1970.—The President is pleased to grant the undermentioned Flag Officer extension of tenure in the substantive rank of Rear Admiral *vide* Regulation 145, Regs. Navy, Part III, Statutory :—

Indian Navy

(Permanent Commission)

Electrical Branch

RADM BR SINGH, 8th Aug. 1971 to 7th Aug. 1972.

L. DAYAL, Jt. Secy. (N)

No. 39, dated 11th Dec. 1970.—The President is pleased to re-employ the undermentioned officer for a period of two years under NI 5/S/58, as amended :—

Indian Navy

Executive Branch

CDR (Time Scale) T. DAS GUPTA, 7th Apr. 1970, with seniority for pay from 7th Apr. 1944.

No. 40, dated 11th Dec. 1970.—The President is pleased to re-employ the undermentioned officer for the period indicated below under NI 5/S/58, as amended :

Indian Navy

Executive Branch

CDR (Time Scale) CR ROY, for 2 years, 16th Apr. 1970, with seniority for pay from 16th Nov. 1943.

No. 41, dated 14th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following promotions :—

Indian Navy

Permanent Commission

Electrical Branch

Sub.-Lts. to be Lts.

V. A. Gokhale, 1st Aug. 1968.

M. Gopala Rao, 1st Oct. 1968.

R. Bhatia, 1st Dec. 1968.

S. P. Shah, 1st Apr. 69 with seniority of (for promotion only), 1st Feb. 1969 *vide* N.I. 69/61.

Indian Navy

Permanent Commission

(On Probation)

Electrical Branch

Ag. S/Lts. to be S/Lts.

S. R. Choudhury, H. C. Gandhi, Y. Janardhan, A. K. Kalra, C. M. Mani, K. R. Menon, M. D. Menon, V. Stigopal and P. V. Venugopalan, 5th Oct. 1969 with seniority of (for promotion only), 15th Jul. 1968.

J. P. Gupta, 5th Oct. 1969 with seniority of (for promotion only), 22nd Jul. 1968.

R. Shahdadpuri, 5th Oct. 1969 with seniority of (for promotion only), 29th Jul. 1968

P. J. Mathew, 5th Oct. 1969 with seniority of (for promotion only), 31st Jul. 1968.

R. P. U. Nair, 5th Oct. 1969 with seniority of (for promotion only), 2nd Aug. 1968.

M. Narendranathan, 5th Oct. 1969 with seniority of (for promotion), 5th Aug. 1968.

K. Shamsuddin, 5th Oct. 1969 with seniority of (for promotion only), 5th Aug. 1968.

B. Bose, 5th Oct. 1969 with seniority of (for promotion only), 6th Aug. 1968.

L. Pillikunja, 5th Oct. 1969 with seniority of (for promotion only), 11th Aug. 1968.

*Vide* Regulations 126, of Regs. Navy Part II, Statutory and Min. of Defence letter OF/3472/64/NHQ/5364/D(N-II), dated 21-5-1966 as amended by OF/3472/64/NHQ/30/69/D (N-II), dated 11-4-1967.

No. 42, dated 11th Dec. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Naval service at their own request :—

(Indian Navy)  
Permanent Commission  
Executive Branch

Commander M. GHOSH, 4th Jul. 1970.

Lt. (SDC) FA RAJARATNAM, 1st Aug. 1970.

LIEUTENANT (SDG) ALI MOHAMED, 7th Aug. 1970.  
2. The officers are placed on the retired list.

No. 43, dated 11th Dec. 1970.—The President is pleased to place the undermentioned officer on the retired list :—

Indian Navy  
Permanent Commission  
Supply & Secretariat Branch

LIEUTENANT (SDCA) RS ANDRADE, 7th Sep. 1970.

JAWAHIR SINGH, Under Secy.

No. 44, dated 14th Dec. 1970.—The undermentioned officer retired from service with effect from the date indicated against his name :—

Shri KT JOHAN, Permt. CGO/offg. Upgraded CGO., 1st Nov. 1970 (FN).

S. K. KAK, Under Secy.

No. 45, dated 28th Nov. 1970.—

Indian Navy  
Permanent Cadre  
Master Chief Petty Officers

(i) In Ministry of Defence Notification No. 446, dated 30th Jan. 1970, published in the Gazette of India No. 7 dated 14 Feb. 1970, in so far as it relates to the advancement of Master Chief Petty Officers First Class, the following amendment be carried out :—  
On page 246, under column 3 against N. B. THAPPA, CH ERA for 50629 read 50529.

(ii) In Ministry of Defence Notification No. 1945 dated 6th July 1970 published in the Gazette of India No. 30th dated 25th Jul. 1970 in so far as it relates to the advancement of Master Chief Petty Officer Second class the following amendment be carried out :—  
on page 933, under column 'Date', serial No. 27 against MS BADWAL, MECH(P)(M)3 No. 64955, for 4-1-1970 read 10-8-1969.

JAWAHIR SINGH, Under Secy

Air Headquarters

No. 46, dated 16th Dec. 1970.—The President is pleased to appoint Shri Hans Raj, permt. Asstt. as offg. Supdt. in the AFHQ Civil Service w.e.f. 9th Nov. 1970 (FN), until further orders, vice Shri P. N. Krishnaswamy, Supdt. transferred. He will be on probation for a period of two years.

No. 47, dated 10th Dec. 1970.—The President is pleased to make the following promotions :—

Air Headquarters

(i) Shri J. C. Marwaha, permt. Asstt. as offg. Supdt. from 1st June, 1970 to 11th July, 1970 vice Shri J. M. Gandhi, granted leave.

(ii) Shri M. B. Lal, permt. Asstt. as offg. Supdt. from 21st Apr. 1970 to 30th May, 1970 vice Shri B. G. Sharma, granted leave.

(iii) Shri R. K. Sehgal, permt. Asstt. as offg. Supdt. from 29th Aug. 1970 to 29th Sep. 1970 vice Shri Krishan Kumar, granted leave.

(iv) Shri R. K. Sehgal permt. Asstt. as offg. Supdt. from 8th July, 1970 to 8th Aug. 1970 vice Shri S. Nath, granted leave.

Air Headquarters

No. 48, dated 10th Dec. 1970.—On attaining the age of 58 years, Shri Gurcharan Singh, Permt. Supdt./Offg. CSO, is transferred to pension establishment, w.e.f., 10th Oct. 1970.

Air Headquarters

No. 49, dated 16th Dec. 1970.—On attaining the age of superannuation, Shri B. K. Dutta, Permt. Asstt./Offg. Supdt, is transferred to pension establishment, w.e.f., 1st Nov. 1970.

R. D. JAIN, Assistant C.A.O.

(Air Branch)

No. 50, dated 27th Nov. 1970.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned under A.F.Is. 49/51, and 23/48 read in conjunction with Govt. of India letter No. Air HQ/6765/42/PO2/5814/D (A), dated 28th Apr. 1952 as amended and A.F.I. 11/55 :—

Indian Air Force

G.D. (P) Branch

(Ex. N.D.A. Flt. Cds. to be Pilot Officers)

Ajit Keshav AGTEY (12188), Biroja Shankar Singh DEO (12189), Raj KUMAR (12190), Sudhir CHANDRA (12191), Devdas BANERJEE (12192), Sankarendra Nath GHOSE (12193), Arun Kumar TIWARY (12194), Tanjore Krishnamurthy RAMACHANDRAN (12195), Archiebald D'MELLO (12196), Akash Deepak DHARMARAJ (12198), Harjit Singh SONDHI (12199), Augustine John SINGH (12200), Manovinder Shamsher Bahadur Singh JAUHAR (12201), Sudhir ASTHANA (12202), MANOJ KUMAR (12203), Milind Madhavrao BALIGA (12204), Vijay Bhalchandra DHARMA-DHIKARI (12205), Satish Kumar SOFAT (12207), Krishna Kumar PANDALAI (12208), Kuldeep Singh SOHAL (12209), Yeshwant Rao RANE (12210), RAJINDER SINGH (12211), Deepak Raniitsinh PATANKAR (12212), Saravjit Singh HOTH (12215), Amritpal Singh SIDHU (12217), HARMO-HINDAR SINGH (12219), VIJAY KUMAR (12220), Satish Chandra MEHTA (12223), Kalash Chandar ARORA (12224), Raghbir Singh GILL (12226), Subhash Chandra SINGH (12227), Rajendra Nath SEN GUPTA (12228), Zachariah KURUVILLA (12230), Vrittamani Srinivasaiyengar GOVINDARAJAN (12232), Yashovijay PARMAR (12235), Goli MAHENDER (12238) and Arun MAGO (12239), 20th Dec. 1969.

George KURUVILLA (12368), 2nd May, 1970.

(Ex. N.C.C. Flt. Cds. to be Pilot Officers)

Prakash Pralhad DANI (12214), Ashok Vishwanath BHAGWAT (12218), Amba Narayan Singh RANAWAT (12221) and Upendra SHASTRI (12233), 20th Dec. 1969.

*(Ex Airmen to be Pilot Officers)*

Prem Prakash SINGH (12206), Pragat SINGH (12234) and Samba Siva Rao KAVURI (12236), 20th Dec. 1969.

No. 51, dated 8th Dec. 1970.—The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission in the rank of Pilot Officer to the undermentioned under A.F.I. 5/S/63 :—

*Indian Air Force*  
*Tech./Elect. Branch*

Satish Chandra CHHABRA (11524), 24th Jul. 1967.

*Tech./Sigs. Branch*

Anand Raghunath Rao JOSHI (10825), 24th Jan. 1967.

No. 52, dated 5th Dec. 1970.—The President is pleased to promote the undermentioned officers to the subs. rank of Wg. Cdr. :—

*Indian Air Force*  
*G.D. (P) Branch*

Sqn. Ldrs. (Actg. Wg. Cdrs.) J. C. Aggarwal (4259), B. K. Dhiman (4332), J. K. Seth (4403), P. K. Dev (4404), K. C. Sharma (4412), 1st Apr. 1970.

S. P. RAI, Under Secy

No. 53, dated 27th Nov. 1970.—The President is pleased to promote the undermentioned officer to the acting rank of Gp Capt. :—

*Indian Air Force*  
*G.D. (P) Branch*

Wg. Cdr. D. A. Lafontaine (3844), 2nd Jan. 1970.

KULWANT SINGH, Dy. Secy.

No. 54, dated 5th Dec. 1970.—The President is pleased to promote the undermentioned Flt. Lts. to the subs. rank of Sqn. Ldr. :—

*Indian Air Force*  
*A&SD Branch*

R. Easwaran (5343), 13th Apr. 1970

*Education Branch*

A. S. Nallamuthu (5335), 13th Apr. 1970.

*G.D. (Nav.) Branch*

S. C. Mehra (5715), 29th May, 1970.

No. 55, dated 27th Nov. 1970.—The President is pleased to promote the undermentioned Fg. Offrs. to the subs. rank of Flt. Lt. :—

*Indian Air Force*  
*Tech. (Sigs.) Branch*

R. Venkata Raju (6839), 9th Nov. 1967.

*A. & S.D. Branch*

Fg. Offr. A. K. S. INDURKAR (7438), 22nd June 1969.

No. 56, dated 11th Nov. 1970.—The President is pleased to promote the undermentioned officers to the subs. rank of Flying Officer :—

*Indian Air Force*  
*Tech. (Elect.) Branch*

Plt. Offrs. S. K. Mitra (10809), V. S. Hattangady (10808), Satya Prakash (10806), I. H. Hazarika (10811), H. K. Gupta (10805), A. K. Mukherji (10812) and M. L. Anand (10810), 1st Dec. 1968 with seniority for pay and promotion from 1st June, 1968

*Tech. (Sigs.) Branch*

Plt. Offrs. H. S. Maini (10787), R. P. Singh (10788), A. K. Zutshi (10784), Raj Gopal (10797), A. Bhargava (10785), Ved Prakash (10792), C. Palanival (10795), V. R. Sharma (10799), S. N. Parasnis (10786), R. K. Sepra (10789), N. Kumar (10794) and Y. P. Sharma (11740), 1st Dec. 1968 with seniority for pay and promotion from 1st June, 1968.

Plt. Offrs. P. Periasamy (11074), V. J. Sirmukaddam (11071), V. K. Khosla (11077), S. Raikhowa (11073), H. K. Lal (10419), K. C. Bhardwaj (11069), R. K. Rathore (11068),

E. R. Das (11070), D. K. Chanda (11072), A. Chatterji (11078), A. P. Baur (11075), N. B. Singh (11064), Jaswant Singh (11754), D. S. Bedi (11755), S. G. Kamath (11756) and Vishnu Dass (11757), 1st Mar. 1969 with seniority for pay and promotion from 31st Aug. 1968.

No. 57, dated 20th Oct. 1970.—The President is pleased to promote the undermentioned officer to the subs. rank of Flying Officer w.e.f. the date stated against his name. With effect from 1st Mar. 1969, consequent on the grant of ante-date of commission to him w.e.f., 31st Aug. 1966, his seniority for pay and promotion as Flying Officer will reckon from 31st Aug. 1968 :—

*Indian Air Force*  
*Tech. (Sigs.) Branch*

Plt. Offr. B. N. Gupta (10796), 2nd Jan. 1969.

No. 58, dated 11th Nov. 1970.—The President is pleased to promote the undermentioned officers to the subs. rank of Flying Officer w.e.f. the date stated against his name. With effect from 13th Jan. 1969, consequent on the grant of ante-date of commission to them w.e.f., 13th July, 1966, their seniority for pay and promotion as Flying Officer will reckon from 13th July, 1968 :—

*Indian Air Force*  
*Tech. (Sigs.) Branch*

Plt. Offrs. K. K. Mittal (10801) and S. Kumar (10800), 2nd Jan. 1969.

No. 59, dated 11th Nov. 1970.—The President is pleased to promote the undermentioned officers to the subs. rank of Flying Officer w.e.f. the date stated against their names. With effect from 1st Dec. 1968, consequent on the grant of ante-date of commission to them w.e.f., 1st June, 1966, his seniority for pay and promotion as Flying Officer will reckon from 1st June, 1968 :—

*Tech. (Elect.) Branch*

Plt. Offr. N. P. Patil (9132), 18th July, 1968.

*Tech. (Sigs.) Branch*

Plt. Offr. B. M. Kaushil (10710), 3rd Oct. 1968.

Plt. Offr. K. K. Beotra (10698), 3rd Oct. 1968.

No. 60, dated 20th Oct. 1970.—The President is pleased to promote the undermentioned officer to the subs. rank of Flying Officer w.e.f. the date stated against his name. With effect from 6th Jan. 1970, consequent on the grant of ante-date of commission to him w.e.f., 28th Jan. 1965, his seniority for pay and promotion as Fg. Offr. will reckon from 28th Jan. 1967 :—

*Indian Air Force*

*Tech. (Sigs) Branch*

Plt. Offr. G. Banerjee (10766), 28th Jan. 1969.

No. 61, dated 8th Dec. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to relinquish their Provisional Short Service Commission w.e.f. the date indicated against their names and to grant them Short Service Commission (on probation) w.e.f. the same date :—

*Indian Air Force*

*Tech./Elect. Branch*

Satish Chandra CHHABRA (11524), 15th Jul. 1968.

*Tech./Sigs. Branch*

Anand Raghunath Rao JOSHI (10825), 20th Jul. 1968.

No. 62, dated 28th Nov. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to resign his commission.

*Indian Air Force*

*G.D. (P) Branch*

Flt. Lt. K. Mohan (6501), 2nd Oct. 1970.

No. 63, dated 3rd Dec. 1970.—The undermentioned officer has been dismissed from service by sentence of a General Court Martial.

*Indian Air Force**G.D. (P) Branch*

Fg. Offr. D. Biswas (9842), 12th June, 1970.

No. 64, dated the 28th Nov. 1970.—The President is pleased to release from the Auxiliary Air Force the undermentioned officers from the dates stated against their names on completion of their tenures:—

*Auxiliary Air Force**G.D. (P) Branch*

Flt. Lt. Vodur Prabhakar REDDI (Aux : 30130), 30th Apr. 1970.

Flt. Lt. Rabi Narayan SINGH (Aux : 30156), 26th Aug. 1970.

Flt. Lt. Shirishkumar Ambalal PANDYA (Aux : 30161), 3rd Sep. 1970.

*A. & S. D. Branch*

Flt. Lt. Ashok Wamanrao BANDEKAR (Aux : 30166), 24th Sep. 1970.

Flt. Lt. Raphael Bertram DONALD (Aux : 30167) 24th Sep. 1970.

No. 65, dated 28th Nov. 1970.—The President is pleased to terminate the probationary Short Service Commission of the undermentioned officer.

*Indian Air Force**Tech./Sigs. Branch*

Plt. Offr. S. K. Bose (11555), 16th June, 1968.

No. 66, dated 28th Nov. 1970.—*Corrigendum*.—In Min. of Def. Gazette Notification No. 1948 dated 25-6-70 published on 25-7-70, under Tech./Sigs. Branch *delete* last entry regarding "Balakrishna Ramakrishna PILLAI (12113), 25th Oct. 1968 and *substitute* "Balaticalanda Uthaiah CHENGAPPA (12112), 2nd Nov. 1968.

S. P. RAI, Under Secy.